



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 27—नवम्बर 2, 2012 (कार्तिक 5, 1934)

No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 27—NOVEMBER 2, 2012 (KARTIKA 5, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 अक्टूबर 2012

सं. आरएस. 3/7/2012/104-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में संपादक के ग्रेड में कार्यरत निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके समक्ष दी गई तारीखों के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 15,600--39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 +6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ सहायक निदेशक (सं. एवं अनु.) के ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया है:--

- | | | |
|----------------------------|----|------------|
| 1. श्री सोबरन प्रसाद | -- | 29.09.2012 |
| 2. श्री श्याम लाल हेम्ब्रम | -- | 04.10.2012 |

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 सितम्बर 2012

सं. ए-19015/07/2012-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, ग्वालियर में वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'ख',

श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव, को राष्ट्रीय प्राधिकरण, रासायनिक हथियार समझौता, मंत्रिमंडल सचिवालय में प्रतिनियुक्ति आधार पर 9,300--34,800/- रु. के संशोधित वेतन बैंड पीबी-2 + 4,800/- रु. ग्रेड वेतन में, 06 सितम्बर, 2012 के पूर्वाह्न से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तकनीकी अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

के. जे. सिबिचन, अवर सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 10 अक्टूबर 2012

सं. ए-12025/27/2012-प्रशासन-1--राष्ट्रपति, श्री आर. वाई. कदीर, उपसलाहकार (मॉनीटरिंग कोल/पेट्रोलियम) को योजना आयोग में पे बैंड-4 रुपये 37,400--67,000/- + 8,700/- (ग्रेड पे) के वेतनमान में संयुक्त सलाहकार (परियोजना अंकन) के पद पर तदर्थ नियुक्ति दिनांक 28.09.2012 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष तक अथवा पद के नियमित रूप से भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक के लिए अथवा इनमें से जो भी पहले हो, करते हैं।

2. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह तदर्थ नियुक्ति उपर्युक्त अधिकारी को संयुक्त सलाहकार के पद पर नियमित नियुक्ति का कोई

अधिकार प्रदान नहीं करता और न ही संयुक्त सलाहकार के पद पर उनकी इस तदर्थ नियुक्ति की अवधि को संयुक्त सलाहकार ग्रेड में वरीयता के लिए अथवा उच्च स्तर पर प्रोन्नति के लिए गिना जायेगा।

जी. राजीव, अवर सचिव

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

नई दिल्ली-110001, दिनांक 11 अक्टूबर 2012

सं. ए-19012/59/12-यू आई डी ए आई--भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, योजना आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 05.09.2012 के पत्र सं. ए-12013/21 (अनुभाग अधिकारी/मुख्यालय) 11-यू आई डी ए आई और महानिदेशक, आई टी बी पी के दिनांक 27.09.2012 के कार्यालय आदेश सं. 1.201017/05/2012/स्था./8814-25 के अनुसरण में श्री गोविन्द सिंह ने दिनांक 05.10.2012 (पूर्वाह्न) से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (मुख्यालय) दिल्ली में 9,300/-34,800/- रुपये के वेतन बैंड + 4,800/- रुपये के ग्रेड वेतन में प्रतिनियुक्ति के आधार पर तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, अनुभाग अधिकारी के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

अरुण कुमार सरकार, उप-निदेशक (स्था.)

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 8 अक्टूबर 2012

सं. ए-19/जी-ए/111--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25.09.2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14/3/2012-ई ओ (एम एम. 1) के अनुसरण में तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से दिनांक 27.09.2012 के कार्यालय आदेश सं. 6-2/2010-प्रशा. द्वारा कार्यमुक्त होने के परिणामस्वरूप, श्री सुरेंद्र सिंह यादव, आई टी एस : 1990 को दिनांक 28.09.2012 (अपराह्न) से प्रतिनियुक्ति आधार पर वेतन बैंड-4 (रु. 37,400/-67,000/-) तथा रु. 8,700/- के अद्विरूपी ग्रेड वेतन में 21.5.2014 तक अर्थात् केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की शेष अवधि तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, एतद्वारा, आयोग में निदेशक (प्रशिक्षण) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

बी. सी. पात्रा, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 अक्टूबर 2012

सं. ए-32014/5/2010-प्रशा.-IV (वि.का.) खंड II--राष्ट्रपति, निम्नलिखित नियमित वैयक्तिक सहायकों (तदर्थ निजी सचिव के रूप में कार्यरत) को, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.07.2012 के का.ज्ञा. सं. 4/2/2012-सीएस II (ए) के तहत जोनिंग स्कीम के अधीन केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निजी सचिव ग्रेड की वर्ष 2010 की चयन सूची में सम्मिलित किए जाने पर, उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तारीख से इस विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में वेतन बैंड-2, रु. 9,300/-34,800/- में

रु. 4,800/- ग्रेड वेतन सहित नियमित आधार पर निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	नाम	सीएसएल सं.	तैनाती का वर्तमान संवर्ग	इस विभाग में कार्य-ग्रहण करने की तारीख
1.	सुश्री आर. राधिका	284	वाणिज्य	25.09.2012
2.	श्री उत्तम कुमार मांझी	439	शहरी विकास	24.08.2012 (अपराह्न)
3.	श्री एच. सी. भठेजा	654	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (मुख्य श्रम आयुक्त का कार्यालय)	10.09.2012 (अपराह्न)

आशा सोटा, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 अक्टूबर 2012

सं. आई-14013/54/2012-आईपीएस-1--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ में श्री हुकुम सिंह द्वारा दायर ओ. ए. संख्या 348/एचआर/2012 में पारित दिनांक 23/08/2012 के आदेश के आलोक में हरियाणा राज्य पुलिस सेवा के पूर्व सदस्य श्री हुकुम सिंह (जन्मतिथि 02/06/1953) को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत हरियाणा संवर्ग प्रदान करते हैं।

प्रशान्त निकम, निदेशक (पुलिस)

नई दिल्ली, दिनांक 17 सितम्बर 2012

सं. ए-32014/5/2012-प्रशा.1 (क)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के श्री जी. राजकुमार, दूर संचार विभाग संवर्ग इकाई में कार्यरत निजी सचिव को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29/8/2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/3/2011-सी.एस.-2 (क) के अनुसार वर्ष 2010 की प्रधान निजी सचिव की चयन सूची में उनके नाम शामिल होने के फलस्वरूप, उन्हें दिनांक 14/09/2012 के पूर्वाह्न से गृह मंत्रालय संवर्ग इकाई में नियमित आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 29/8/2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/3/2011-सी.एस.-2 (क) के तहत श्री जी. राजकुमार, प्रधान निजी सचिव की वरियता को दिनांक 20/3/2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/3/2011-सी.एस.-2 (क) के संबंधित अनुलग्नक में क्रम सं. 586 ए पर निर्धारित किया है। प्रधान निजी सचिव के पद

पर इनकी नियुक्ति इनके कनिष्ठ श्री बेंजामिन किस्कू (क्रम सं. 587) की पदोन्नति की तिथि 20/3/2012 से प्रभावी है।

जे. बी. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक अक्टूबर 2012

सं. 20/जी/3142-प्रशा. 1--राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी श्री तारा चंद के दिनांक 31.08.2012 को हुए निधन की उद्घोषणा करते हैं।

जे. बी. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 10 अक्टूबर 2012

सं. 24013/91/2005-आईपीएस-II--राष्ट्रपति, मणिपुर-त्रिपुरा (एम टी : 2000) के संयुक्त संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य श्री अनुभव के मानित त्याग पत्र के संबंध में अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियम, 1955 के नियम 7(2) के प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से लागू करते हैं।

के. नटराजन, अवर सचिव

(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 4 अक्टूबर 2012

सं. I-45011/16/2004-ए डी (सी डी)--राष्ट्रपति श्री शमीम, उपनिदेशक, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर, गृह मंत्रालय को उसी संस्थान में प्रोन्नति आधार पर दिनांक 09.07.2012 से उनकी अधिवर्षिता की तारीख अर्थात् दिनांक 30.11.2018 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, रु. 12,000--16,500/- के वेतनमान (पूर्व संशोधित)/संशोधित पे बैंड-3 रु. 15,600--39,100 + ग्रेड पे रु. 7,600/- में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

संजय अग्रवाल, निदेशक

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 सितम्बर 2012

सं. 14012/24/2012-अ.भा.से.-III--भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारतीय प्रशासनिक सेवा में तमिलनाडु राज्य संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि(यों) से स्थायी करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	बैच	स्थायीकरण की तिथि
(सर्वश्री)			
1.	वी. ललितालक्ष्मी	2008	01.09.2010
2.	वाडनेर प्रशान्त मुकुंद	2008	01.09.2010

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

दिनांक 3 अक्टूबर 2012

सं. 11019/37/2007-अ.भा.से.-III--राष्ट्रपति निदेश देते हैं कि मध्य प्रदेश संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य श्री अनिल यादव (म.प्र. : 99) को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 7(2) के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा से त्यागपत्र दिया हुआ समझा जाता है।

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

दिनांक 8 अक्टूबर 2012

सं. 23012/13/2012-अ.भा.से.-III--सुश्री घोटके रश्मि जयेन्द्र, भा.प्र.से. (टीएन:2010) को उनका नाम सुश्री घोटके रश्मि जयेन्द्र से बदलकर श्रीमती रश्मि सिद्धार्थ जागड़े किए जाने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार वह सभी कार्यालय संबद्ध उद्देश्यों के लिए श्रीमती रश्मि सिद्धार्थ जागड़े के रूप में पहचानी जाएंगी।

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 28 सितम्बर 2012

सं. 14015/05/2011-अ.भा.से.(I)-क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, चयन सूची वर्ष 2010 (2010 की रिक्तियों पर) हेतु राज्य सरकार के परामर्श से उक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में पदोन्नति कोट रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5(5) के अंतर्गत दिनांक 24 फरवरी, 2012 को तैयार की गई और विनियम 7(2) के अंतर्गत दिनांक 16.08.2012 को अनुमोदित की गई निम्नलिखित नामों वाली छत्तीसगढ़ के राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की चयन सूची को अधिसूचित करते हैं :--

चयन सूची 2010 (2010 की रिक्तियों पर)

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि
1	2	3
(सर्वश्री)		
1.*	ओंकार सिंह (अ.ज.जा.)	03.11.1959
2.*	इंदुल राम देहाड़ी (अ.ज.जा.)	28.07.1960
3.	ए. कुलभूषण टोप्पो (अ.ज.जा.)	17.09.1962
4.	अनिल कुमार टुटेजा	20.05.1963
5.	नरेन्द्र कुमार शुक्ला	22.05.1960
6.	निरंजन दास	04.01.1963
7.	एमिल लाकड़ा (अ.ज.जा.)	06.09.1962

1	2	3
	(सर्वश्री)	
8.	गोविंदराम चुरेन्द्र (अ.ज.जा.)	14.12.1964
9.	उमेश कुमार अग्रवाल	29.06.1962
10.	धनंजय देवनगन	08.02.1963
11.	डॉ. एस. के. अलंग	08.07.1964
12.	छत्तर सिंह देहरे (अ.जा.)	27.10.1960
13.	तामन सिंह सोनवानी (अ.जा.)	09.09.1961
14.#	आनन्द कुमार मसीह (अ.ज.जा.)	05.08.1964

* क्र. सं. 1 और 2 पर दिए गए अधिकारियों के नामों को राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र मंजूर किए जाने और उनके विरुद्ध लंबित दाण्डिक कार्यवाहियों में अनापत्ति दिए जाने के अध्यक्षीन अनंतिम रूप से सूची में शामिल किया गया है।

क्र. सं. 14 पर दिए गए अधिकारी का नाम राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र मंजूर किए जाने के अध्यक्षीन चयन सूची में शामिल किया गया है।

2. उपर्युक्त नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के समक्ष राज्य प्रशासनिक सेवा संघ और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य द्वारा दायर रिट याचिका सं. 3371/2006 के परिणाम के अध्यक्षीन हैं।

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

सं. 14015/5/2011-अ.भा.से.(I)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, चयन सूची वर्ष 2010 हेतु (2010 की रिक्तियों पर) राज्य सरकार के परामर्श से उक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के छत्तीसगढ़-राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में अगले आदेशों तक, परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ संवर्ग में उनका आवंटन करते हैं :-

चयन सूची 2010 (2010 की रिक्तियों पर)

क्र. सं.	नाम
1	2
	(सर्वश्री)
1.	ए. कुलभूषण टेप्पो (अ.ज.जा.)
2.	अनिल कुमार टुटेजा
3.	नरेन्द्र कुमार शुक्ला
4.	निरंजन दास
5.	एमिल लाकड़ो (अ.ज.जा.)

1	2
	(सर्वश्री)
6.	गोविंदराम चुरेन्द्रे (अ.ज.जा.)
7.	उमेश कुमार अग्रवाल
8.	धनंजय देवनगन
9.	डॉ. एस. के. अलंग
10.	छत्तर सिंह देहरे (अ.जा.)
11.	तामन सिंह सोनवानी(अ.जा.)

2. उपर्युक्त नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के समक्ष राज्य प्रशासनिक सेवा संघ और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य द्वारा दायर रिट याचिका सं. 3371/2006 के परिणाम के अध्यक्षीन हैं।

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 4 अक्टूबर 2012

सं. 13017/10/2007-अ.भा.से.(I)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं तमिलनाडु सरकार तथा गृह मंत्रालय की सहमति से केन्द्र सरकार, श्री आर. लालवेना, भा.प्र.से. (तमिलनाडु: 01) की तमिलनाडु संवर्ग से एजीएमयूटी संवर्ग (मिजोरम सेगमेंट) में अंतर संवर्गीय प्रतिनियुक्ति को 10.08.2012 के बाद दो वर्ष की अवधि तक बढ़ाने के लिए एतद्वारा अनुमोदन प्रदान करती हैं।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

दिनांक 9 अक्टूबर 2012

सं. 13017/40/2012-अ.भा.से.(I)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार, सुश्री जयश्री भोज, भा.प्र.से. (महाराष्ट्र : 03) की महाराष्ट्र संवर्ग से उत्तर प्रदेश संवर्ग में अंतर संवर्गीय प्रतिनियुक्ति को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, एतद्वारा अनुमोदन करती हैं।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 10 अक्टूबर 2012

सं. 24012/17/2012-स्थापना (ख)--राष्ट्रपति, श्री किशोर बाबूराव जगताप, सी.पी.ई.एस.(1998), उपनिदेशक, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को दिनांक 21 सितम्बर, 2012 (पूर्वाह्न) से चार वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए कर्मचारी चयन आयोग (पश्चिमी क्षेत्र), मुम्बई में क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

यू. एस. चट्टोपाध्याय, अवर सचिव

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 10 अक्टूबर 2012

सं. 19011/4/2012-प्रशासन-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 4/2/2012-सीएस-II (क) दिनांक 17 जुलाई, 2012 के अनुसरण में, राष्ट्रपति, श्रीमती सुनीता वी रामटेके, निजी सचिव, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) को वरिष्ठता कोटे (एस. क्यू.) के लिए जोनिंग योजना के अंतर्गत चयन सूची 2010 के सीएसएसएस के आशुलिपिक ग्रेड (क एवं ख) (विलयित) की चयन सूची में नियमित आधार पर दिनांक 31.8.2012 के पूर्वाह्न से पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग में नियुक्त करते हैं।

एस. पी. कक्कड़, अवर सचिव

सं. 19011/5/2012-प्रशासन-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 4/2/2012-सीएस-II (क) दिनांक 17 जुलाई, 2012 के अनुसरण में, राष्ट्रपति, श्री दयाशंकर प्रसाद, निजी सचिव, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) को वरिष्ठता कोटे (एस. क्यू.) के लिए जोनिंग योजना के अंतर्गत चयन सूची 2010 के सीएसएसएस के आशुलिपिक ग्रेड (क एवं ख) (विलयित) की चयन सूची में नियमित आधार पर दिनांक 27.8.2012 के पूर्वाह्न से पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग में नियुक्त करते हैं।

एस. पी. कक्कड़, अवर सचिव

सं. 19011/6/2012-प्रशासन-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 4/2/2012-सीएस-II (क) दिनांक 17 जुलाई, 2012 के अनुसरण में, राष्ट्रपति, श्री संदीप गोस्वामी रामटेके, निजी सचिव, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) को वरिष्ठता कोटे (एस. क्यू.) के लिए जोनिंग योजना के अंतर्गत चयन सूची 2010 के सीएसएसएस के आशुलिपिक ग्रेड (क एवं ख) (विलयित) की चयन सूची में नियमित आधार पर दिनांक 10.9.2012 के पूर्वाह्न से पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग में नियुक्त करते हैं।

एस. पी. कक्कड़, अवर सचिव

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 अक्टूबर 2012

सं. 19011/1/2011-पीए--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21 सितम्बर, 2012 के संप्रेषण संख्या 1/6/2012-ईक्यू (एसएम-I) द्वारा पर्यटन मंत्रालय में उनका स्थानान्तरण हो जाने के परिणामस्वरूप, श्री परवेज दीवान, भा.प्रा.से. (जे एंड के-77) ने 4 अक्टूबर, 2012 पूर्वाह्न से सचिव, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

नेहजामांग सिमटे, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 सितम्बर 2012

सं. 20/2012 (फा. सं. ए-19013/36/2012-प्रशासन-1क)--व्यय विभाग के दिनांक 20 सितम्बर, 2012 के संवर्ग प्रशासन अनुभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-12026/8/2010-सीएस के और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.07.2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2012-सी.एस.-II (ए) के अनुसरण में और वर्ष 2010 की चयन सूची (वरिष्ठता कोटा) में शामिल होने के फलस्वरूप राष्ट्रपति सुश्री शन्ता कुमारी, नियमित आशुलिपिक ग्रेड 'ग' केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा, जो इससे पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में तदर्थ आधार पर निजी सचिव के रूप में कार्य कर रही थीं, उन्हें राजस्व विभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड 'क' एवं 'ख' (विलयित) के रूप में नियमित आधार पर दिनांक 31.09.2012 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं।

भूपिन्दर सिंह, अवर सचिव

सं. 21/2012 (फा. सं. ए-19013/37/2012-प्रशासन-1क)--व्यय विभाग के दिनांक 20 सितम्बर, 2012 के संवर्ग प्रशासन अनुभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-12026/8/2012-सीएस के और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.07.2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2012-सी.एस.-II (ए) के अनुसरण में और वर्ष 2010 की चयन सूची (वरिष्ठता कोटा) में शामिल होने के फलस्वरूप राष्ट्रपति, सुश्री हनी रानी भटनागर, नियमित आशुलिपिक ग्रेड 'ग' केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा, जो इससे पहले वाणिज्य विभाग में तदर्थ आधार पर निजी सचिव के रूप में कार्य कर रही थीं, उन्हें राजस्व विभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड 'क' एवं 'ख' (विलयित) के रूप में नियमित आधार पर दिनांक 04.09.2012 (अपराह्न) से नियुक्त करते हैं।

भूपिन्दर सिंह, अवर सचिव

सं. 22/2012 (फा. सं. ए-19013/35/2012-प्रशासन-1क)--व्यय विभाग के दिनांक 20 सितम्बर, 2012 के संवर्ग प्रशासन अनुभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-12026/8/2012-सीएस के और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.07.2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2012-सी.एस.-II (ए) के अनुसरण में और वर्ष 2010 की चयन सूची (वरिष्ठता कोटा) में शामिल होने के फलस्वरूप राष्ट्रपति श्री मनोज कुमार मेहरा, नियमित आशुलिपिक ग्रेड 'ग' केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा, जो इससे पहले गृह मंत्रालय में तदर्थ आधार पर निजी सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे, उन्हें राजस्व विभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड 'क' एवं 'ख' (विलयित) के रूप में नियमित आधार पर दिनांक 07.09.2012 (अपराह्न) से नियुक्त करते हैं।

भूपिन्दर सिंह, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 28 सितम्बर 2012

सं. 91 : (फा. सं. ए-19011/19/2010-प्रशा.-1)--राष्ट्रपति, सुश्री मधु महाजन, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 82026) को दिनांक 17.09.2012 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, 10,000/- रुपये ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड (पी बी)-4 (37,400--67,000/- रुपये) में केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड में आयुक्त (सतर्कता) के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 3 अक्टूबर 2012

सं. 92 : (फा. सं. ए-19013/16/2012-प्रशा.-1)--राष्ट्रपति, श्री अक्षय जोशी, (भारतीय राजस्व सेवा : सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) को दिनांक 24.09.2012 (पूर्वाह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 93 : (फा. सं. ए-38011/6/2012-प्रशा.-1)--राजस्व विभाग में सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के रूप में तैनात भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 75031) के अधिकारी श्री के. माधवन नायर अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30.09.2012 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 5 अक्टूबर 2012

सं. 95 : (फा. सं. ए-19011/20/2012-प्रशा.-1)--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (बी एच : 82), की अधिकारी सुश्री रश्मि वर्मा, को दिनांक 28.09.2012 (अपराह्न) से तथा अगले आदेशों तक, रुपये 67,000--79,000/- के उच्च प्रशासनिक ग्रेड वेतनमान में वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में अपर सचिव, भारत सरकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 10 अक्टूबर 2012

सं. 2/2012-ई.-एस. [फा. सं. ए-12026/3/2012-एस.ओ.(ई.एस. सेल)]-राष्ट्रपति, सम्प्रेत संपत्ति अपील अधिकरण (एटीएफपी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार को दिनांक 05.10.2012 (पूर्वाह्न) से छह महीने की अवधि के लिए अथवा पूर्णकालिक आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत अपील अधिकरण में अध्यक्ष की नियुक्ति किये जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के अंतर्गत अपील अधिकरण के अध्यक्ष के पद का कार्यभार सौंपते हैं।

बिप्लब कुमार नस्कर, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 11 अक्टूबर 2012

सं. ए-19011/1/2012-प्रशा.III--राष्ट्रपति, श्री अजय नारायण झा, भा.प्र.से. (एमटी: 82) को 14वां वित्त आयोग के एडवांस सेल में अपर सचिव के रैंक व वेतनमान पर दिनांक 28 सितम्बर, 2012 के अपराह्न से पद के बने रहने, अथवा अगले आदेशों, इनमें से जो भी पहले हो, तक विशेष कार्याधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

राम सिंह, अवर सचिव

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 27 सितम्बर 2012

सं. ए-32014/2/2012-स्थापना--राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों को 20 सितंबर, 2012 से अथवा अगले आदेश होने तक, तदर्थ आधार पर वित्तीय सेवाएं विभाग में अनुभाग अधिकारियों के रूप में नियुक्त करते हैं :--

- (1) श्री गौरव शुक्ल
- (2) श्री रविन्दर कुमार
- (3) श्री योगेश कुमार

तदर्थ पदोन्नति का विस्तार निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अधधीन होगा :--

- (i) तदर्थ प्रोन्नति की अवधि 31.12.2012 तक या नियमित अनुभाग अधिकारियों के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, होगी।
- (ii) नियुक्ति-प्राप्त अधिकारियों को तदर्थ नियुक्ति से अनिश्चितकाल तक इस ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में शामिल होने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- (iii) तदर्थ नियुक्तियां तब तक जारी रहेंगी, जब तक कि अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित अभ्यर्थी या तो वरिष्ठता कोटे या सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) के माध्यम से उपलब्ध नहीं हो जाते। तदर्थ नियुक्ति प्राप्त अधिकारियों के इन दोनों श्रेणियों में से किसी में भी नियमित नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त न करने की दिशा में वे वैसे नियमित अधिकारियों के उपलब्ध होने पर सहायक ग्रेड में उस तारीख से प्रत्यावर्तित हो जाएंगे जिस दिन वे (नियमित अनुभाग अधिकारी) उन्हें विभाग द्वारा आबंटित अपने संबंधित संवर्ग इकाईयों में कार्यभार ग्रहण कर लेंगे।

मृत्युंजय सिंह, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 अक्टूबर 2012

सं. ए-12026/1/2011-एडी.I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय

आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित आशुलिपिक समूह 'ग' (वैयक्तिक सहायक) (तदर्थ निजी सचिव के रूप में स्थानापन्न) को वर्ष 2010 की चयन सूची (भाग) के वरिष्ठता कोटा से उनके नामों के आगे दर्शायी गई तारीख से 9,300--34,800 रुपए के वेतन बैंड-2+4,800/- रुपए (ग्रेड वेतन) में नियमित आधार पर वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में आशुलिपिक समूह 'क एवं ख' (विलयित) (निजी सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	सीएसएल सं.	नाम	से प्रभावी
(सर्वश्री/सुश्री)			
1.	746	उमराव सिंह	07.09.2012 (पूर्वाह्न)
2.	1227	सुनीता लाकड़ा	14.09.2012 (पूर्वाह्न)

बिप्लब कुमार रॉय, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 अक्टूबर 2012

सं. ए-32015/7/2012-संवर्ग--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग की निजी सचिव (तदर्थ) श्रीमती वीना बेरी को 27.09.2012 (पूर्वाह्न) से चयन सूची वर्ष 2010 के लिए वरीयता कोटा में पूर्ति प्रभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग की नियमित निजी सचिव के रूप में पी.बी.-2 (रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड पे रु. 4,800/-) में नियुक्त करते हैं।

2. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग की निजी सचिव, श्रीमती वीना बेरी को पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में तैनात किया जाता है।

संजय शंकर, अवर सचिव

वस्त्र मंत्रालय

वस्त्र आयुक्त का कार्यालय

मुंबई-400020, दिनांक 8 अक्टूबर 2012

सं. 5(23)/2011/स्था-एक--सक्षम प्राधिकारी (वस्त्र मंत्री) ने वस्त्र आयुक्त कार्यालय, भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, मुंबई के निम्नलिखित श्रेणियों के पदों के पुनर्पदनाम हेतु इन पदों के वेतनमान एवं स्तरों में कोई भी बदलाव किए बिना दिनांक 15 जून, 2004 से स्वीकृति प्रदान की है:--

क्र. सं.	पदों के विद्यमान पदनाम	वेतन श्रेणी (रु.)	पदों के पुनर्पदनाम/नए पदनाम
1	2	3	4
1.	निदेशक (उत्पादन एवं विकास)	12000-375-16,500/-	निदेशक (तकनीकी)
2.	उप निदेशक (उत्पादन एवं विकास)	10,000-325-15,200/-	उप निदेशक (तकनीकी)

1	2	3	4
3.	उप निदेशक (रसायन प्रसंस्करण)	10,000-325-15,200/-	उप निदेशक (तकनीकी-रसायन प्रसंस्करण)
4.	सहायक निदेशक श्रेणी-I (उत्पादन एवं विकास)	8,000-275-13,500/-	सहायक निदेशक श्रेणी-I (तकनीकी)
5.	सहायक निदेशक श्रेणी-II (उत्पादन एवं विकास)	6,500-200-10,500/-	सहायक निदेशक श्रेणी-II (तकनीकी)
6.	हिन्दी अधिकारी	6,500-200-10,500/-	सहायक निदेशक श्रेणी-II (राजभाषा)
7.	अधीक्षक	5,500-175-9,000/-	कार्यालय अधीक्षक
8.	आर्थिकी अन्वेषक	5,500-175-9,000/-	आर्थिकी अधिकारी
9.	लागत अन्वेषक	5,500-175-9,000/-	लागत अधिकारी
10.	तकनीकी अन्वेषक	5,500-175-9,000/-	तकनीकी अधिकारी
11.	वरिष्ठ गेस्टेनर ऑपरेटर	3,050-75-3,950-80-4,590/-	गेस्टेनर-कम-फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर

इसे दिनांक 25 मई 2004 के डायरी सं. एफडि (वस्त्र), 540/04 द्वारा ए.एस. एवं एफ.ए./वित्त प्रभाग, वस्त्र मंत्रालय की सहमति के साथ भी जारी किया जा रहा है।

नरेश कुमार, उप निदेशक (प्रशा.)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 अगस्त 2012

सं. ए-19011/12/2007-स्थापना--अपनी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि को पूरा करने पर, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव, श्री विवेक कुमार, भा.प्र. से. (प.ब. : 90), को दिनांक 09.08.2012 अपराह्न से मंत्रालय में उनकी सेवाओं से कार्य मुक्त किया जाता है।

2. श्री विवेक कुमार को दिनांक 13.08.2012 से 12.10.2012 तक (दिनांक 10, 11 और 12 अगस्त, 2012 को राजपत्रित अवकाश के रूप में छुट्टियों से पहले जोड़ कर) 2 माह का अर्जित अवकाश भी प्रदान किया गया है। उपरोक्त छुट्टी अवधि के पूरा होने पर उनकी सेवाओं को पश्चिम बंगाल सरकार को सौंपा जाता है।

के.एम. सिंह, अवर सचिव

दिनांक 22 अगस्त 2012

सं. ए-22011/2/2010-स्थापना--कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.08.2012 के का.ज्ञा. सं. 2/2/2007-ईओ (एमएम-I) के अनुसरण में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक श्री दीपेन्द्र पाठक, भा.पु.से. (केन्द्र शासित प्रदेश : 90) को 22.08.2012 पूर्वाह्न से मंत्रालय में उनकी सेवाओं से कार्य मुक्त किया जाता है।

2. श्री पाठक से गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को रिपोर्ट करने का अनुरोध किया जाता है।

के.एम. सिंह, अवर सचिव

दिनांक 19 सितम्बर 2012

सं. ए-32011/1/2012-स्थापना--कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 जुलाई, 2012 के का.ज्ञा. सं. 4/2/2012-सीएस-II (ए) के संदर्भ में और वरिष्ठता कोटा (एसक्यू) की क्षेत्र योजना के तहत वर्ष 2010 की चयन सूची में नाम शामिल होने पर, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय की केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) संवर्ग की निजी सचिव (तदर्थ) श्रीमती के. माधवी (सीएसएल सं. 497) को 9,300--34,800/- रु. के वेतन बैंड-2 में ग्रेड वेतन 4,800/- के साथ दिनांक 07 सितम्बर, 2012, पूर्वाह्न से नियमित आधार पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सीएसएसएस संवर्ग के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

के.एम. सिंह, अवर सचिव

सं. ए-32011/1/2012-स्थापना--कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 जुलाई, 2012 के का.ज्ञा. सं. 4/2/2012-सीएस-II (ए) के संदर्भ में और वरिष्ठता कोटा (एसक्यू) की क्षेत्र योजना के तहत वर्ष 2010 की चयन सूची में नाम शामिल होने पर, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) संवर्ग के निम्नलिखित निजी सचिवों (तदर्थ) को 9,300--34,800/- रु. के वेतन बैंड-2 में ग्रेड वेतन 4,800/- के साथ नियमित आधार पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सीएसएसएस संवर्ग के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं:--

- (i) श्री मदन मोहन (सीएसएल सं. 652)
- (ii) श्री एस.के. पटियाल (सीएसएल सं. 920)

के.एम. सिंह, अवर सचिव

दिनांक 1 अक्टूबर 2012

सं. ए-32011/1/2012-स्थापना--कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 जुलाई, 2012 और 10 सितम्बर, 2012 के का.ज्ञा. सं. 4/2/2012-सीएस-II (ए) के संदर्भ में और वरिष्ठता कोटा (एसक्यू) की क्षेत्र योजना के तहत वर्ष 2010 की चयन सूची में उनका नाम शामिल होने पर, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) संवर्ग के निजी सचिव (तदर्थ) श्री नितिन जैन (सीएसएल सं. 759) को 9,300--34,800/- रु. के वेतन बैंड-2 में ग्रेड वेतन 4,800/- के साथ नियमित आधार पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सीएसएसएस संवर्ग के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

के.एम. सिंह, अवर सचिव

दिनांक 8 अक्टूबर 2012

सं. ए-60011/29/2006-स्थापना--कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10.09.2012 के पत्र सं. 2/1/2012-ईओ (एमएम-I) के अनुसरण में राष्ट्रपति, श्री आलोक त्रिपाठी, भारतीय रेलवे यातायात सेवा (1999) को रु. 15,600--39,100/- के वेतन बैंड-3 में ग्रेड वेतन 7,600/- के

साथ उप सचिव के रूप में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में 5 अक्टूबर, 2012 पूर्वाह्न से चार (04) वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

के.एम. सिंह, अवर सचिव

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 अक्टूबर 2012

सं. 11(38)/2012-स्थापना--इस्पात मंत्रालय में अतिरिक्त औद्योगिक सलाहकार के रूप में कार्यरत और केन्द्रीय सेवा संवर्ग के अधिकारी श्री बी.डी. घोष दिनांक 01.10.2012 (पूर्वाह्न) को स्वैच्छिक सेवा-निवृत्त हो गए हैं।

एस.के. गुप्ता, अवर सचिव

दिनांक 9 अक्टूबर 2012

सं. 5(11)/2012-स्थापना--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21 सितम्बर, 2012 के आदेश सं. 17/9/2012-ईओ(एसएम-1) द्वारा राष्ट्रपति, श्री सैयदेन अब्बासी, आईएएस, (एमएम-90) को दिनांक 9 अक्टूबर 2012 पूर्वाह्न से आगामी 5 वर्षों के लिए अथवा आगे आदेश होने तक इस्पात मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस.के. गुप्ता, अवर सचिव

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 अक्टूबर 2012

सं. ए-18011/151/2012-स्थापना--राष्ट्रपति, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में श्री विवेक रे, भारतीय प्रशासनिक सेवा (यू.टी : 78) को सचिव के रूप में दिनांक 08 अक्टूबर, 2012 के पूर्वाह्न से, अगले आदेशों तक, नियुक्त करते हैं।

यू. विश्वनाथम, उप सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 अक्टूबर 2012

सं. ए-12011/4/2011-स्थापना--केन्द्र सरकार, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के दिनांक 21 सितम्बर, 2012 के आदेश सं. 9/47/2012-ई.ओ. (एम.एम.1) के अनुसरण में और अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा श्री रमेश अभिषेक, आई.ए.एस. (बी.एच.:82) को 21 सितम्बर, 2012 पूर्वाह्न से भारत सरकार के अपर सचिव के रैंक और वेतन पर उपभोक्ता मामले विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले वायदा बाजार आयोग, मुंबई का अध्यक्ष नियुक्त करती है।

एम. ए. चौधुरी, अवर सचिव

सं. ए-12011/6/2009-स्थापना--राष्ट्रपति, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.07.2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2012-सी. एस. II (ए) के अनुसरण में, संस्कृति मंत्रालय में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न निजी सचिव के रूप में कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग की नियमित आशुलिपिक ग्रेड 'ग' श्रीमती बिन्दु ग्रोवर (सी. एस. एल. सं. 311/1993) को चयन सूची वर्ष 2010 पार्ट (वरिष्ठता कोटा) के विरुद्ध दिनांक 28 सितम्बर, 2012 के अपराह्न से अगले आदेशों तक उपभोक्ता मामले विभाग में नियमित आधार पर निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम. ए. चौधरी, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 5 अक्टूबर 2012

सं. एसएम/01/32/2010--राष्ट्रपति द्वारा निदेशक के पद पर कार्यरत ब्रिगेडियर आर.के. बहल को 01.09.2009 से और अगले आदेशों तक वर्ष 2009 के लिए अधिसंख्य पद हेतु भारतीय सर्वेक्षण विभाग में 37,400--67,000/- रु. + 10,000/- रु. ग्रेड वेतन के वेतन बैंड-04 में अपर महासर्वेक्षक के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

जी. विजयराघवन, उप सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 4 जुलाई 2012

सं. 17013/04/2008-आईएफएस. II--भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 7 के उप-विनियम 3 में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग ने केरल राज्य वन सेवा से भारतीय वन सेवा में पदोन्नति के लिए दिनांक 14.05.2012 को हुई चयन समिति की बैठक में तैयार की गई चयन सूची 2007-ए, 2008 और 2009 को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय वन सेवा के केरल संवर्ग में उपलब्ध प्रोन्नति कोटा रिक्तियों को भरने के लिए संबंधित चयन सूची के अनुसार दर्शाए गए केरल राज्य वन सेवा के अधिकारियों के नाम शामिल हैं:--

वर्ष 2007-ए के लिए

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि
1.	श्री सथीश विलियम्स	20.04.1954
2.	श्री ओ. जयराजन	21.03.1953

वर्ष 2008 के लिए:

1.	श्री के.जे. सैमुअल	24.06.1955
2.	श्री एस. जनार्दनन	28.11.1955

3.	श्री बी. जोसेफ	04.05.1956
4.	श्री टी. प्रदीप कुमार	01.12.1956

वर्ष 2009-ए के लिए:

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि
1.	श्री रॉय पी, थॉमस	14.04.1958
2.	श्री पी.पी. चेरियन कुंजु	15.03.1958

एस.एस. बधावन, निदेशक

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली-110108, दिनांक 3 सितम्बर 2012

सं. ए-22012/19/2012-सीएचएच-IV--भारत के माननीय राष्ट्रपति, श्री प्रणव मुखर्जी दिनांक 16 अगस्त, 2012 से मानद चिकित्सकों को उनके पैनल में उनके कार्य अवधि अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, निम्नलिखित चिकित्सकों/सर्जनों को नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	नाम, योग्यता एवं तैनाती का स्थान	जिस पद पर नियुक्ति की गई है
1	2	3
1.	डॉ. पी. आर. गोयल, एमबीबीएस, एमआरएसएच, एफआईसीए, एफएसएस, डीसीआरएम, एन4/26 डीएलएफ, फेज-2, गुडगांव, हरियाणा	परामर्शदाता चिकित्सक तथा पल्मानोलॉजिस्ट एवं छाती रोग, अस्थमा एवं एलर्जी
2.	डॉ. बीना गंजू माला, एमबीबीएस, एमडी, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली	परामर्शदाता स्त्री रोग विज्ञान एवं प्रोफेसर (जीजीएसआईपीयू) पी एच ए एवं पीजीआईएमईआर
3.	डॉ. एस. पी. मंडल, एमबीबीएस, एमएस, (आर्थो) एमसीएच (आर्थो) सर गंगाराम अस्पताल, नई दिल्ली	परामर्शदाता ऑर्थोपेडिक सर्जन
4.	डॉ. आर. के. बाली, बी.डी.एस., एफआरएसएच, एफआईसीडी, एफएसीडी, एमपीएच बाली नर्सिंग होम, करोल बाग/ ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली	डेंटल सर्जन

ललित कुमार, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 सितम्बर 2012

सं. ए-19012/1/2010-ई.ए.--कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि एवं सहकारिता विभाग में वेतनमान 37,400--67,000/- रुपये + 8,700/- (जी.पी.) में निदेशक, (आईईएस) के पद पर कार्यरत श्रीमती हरिता सब्बरवाल को 30.9.2012 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर उन्हें 30 सितम्बर, 2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

एम. एन. सुकुमारन, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 8 अक्टूबर 2012

सं. ए-19012/12/2012-ईए--सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की फाईल सं. 13016/4/2012-आईईएस में दिनांक 31.05.2012 के आदेश के अनुसार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग में तैनाती होने पर श्री रवि सिंह (आईईएस) को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी), कृषि एवं सहकारिता विभाग में पे बैंड-3, 15,600--39,100/- रुपये + 5,400/- रुपये ग्रेड पे के वेतनमान में 31 अगस्त, 2012 के अपराह्न से सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाता है।

ए. के. अरोड़ा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 10 अक्टूबर 2012

सं. 10-56/88-एफपी/आईएनएम--केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद, कृषि एवं सहकारिता विभाग में उपनिदेशक श्री एस. एन. पाण्डेय अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा से 31.8.2012 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हुए।

भैरव दत्त, अवर सचिव

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 अक्टूबर 2012

सं. एफ.1.18/2004-एनवाईकेएस (खंड II)--भारत सरकार एतद्वारा नेहरू युवा केन्द्र संगठन की नियमावली के नियम 9 (क) के अनुसरण में श्री प्रदीप टम्या, संसद सदस्य (लोक सभा) और श्री गणेश सिंह, संसद सदस्य (लोक सभा) को संसद के लोक सभा सदस्यों के लिए बने दो रिक्त पदों पर तत्काल प्रभाव से नेहरू युवा केन्द्र संगठन के शासी बोर्ड के सदस्यों के रूप में मनोनीत करती है।

2. श्री प्रदीप टम्या और श्री गणेश सिंह की सदस्यता अवधि उनके मनोनयन की तारीख से तीन वर्ष अथवा संसद के भंग होने तक अथवा

उनके संसद सदस्य न रहने तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, होगी।

3. यह नेहरू युवा केन्द्र संगठन की उप-विधि और नियमावली के अन्य उपबंधों के अध्वधीन होगा।

राजीव सबरवाल, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

नई दिल्ली-1, दिनांक 9 अगस्त 2012

सं. ए-12034/2/2009-स्था. II--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/9/2010-ई.ओ. (एमएस-1) दिनांक 12.07.2012 के अनुसरण में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री डी. नेपोलियन) के निजी सचिव श्री के. जेगादीसन, आई.पी.एस. (एजीएमयूटी : 1998) की नियुक्ति के स्तर को बढ़ाकर दिनांक 12.07.2012 से उन्हें निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. इस मंत्रालय में निदेशक स्तर पर, मंत्री (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) के निजी सचिव के रूप में श्री जेगादीसन, की नियुक्ति उनके लिए व्यक्तिगत रूप में होगी। राज्य मंत्री (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) के निजी सचिव के रूप में उनके अनुमोदित कार्यकाल, जो 26.09.2015 तक है, में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

उत्तम प्रकाश, अवर सचिव

दिनांक 30 अगस्त 2012

सं. ए-20011/5/2011-स्था. I--राष्ट्रपति, एफआरएसआर के नियम 56 (के) के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अधिकार का उपयोग करने और इसका सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन किए जाने पर इस मंत्रालय की श्रीमती सुदेश सैनी, अनुभाग अधिकारी को दिनांक 01.09.2012 के पूर्वाह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

उत्तम प्रकाश, अवर सचिव

दिनांक 20 सितम्बर 2012

सं. ए-12022/1/2007-स्था. I--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09.07.2012 के का.ज्ञा. सं. 4/2/2012-ई.ओ. (एम.एम.-1) के अनुसरण में श्री ज्ञानेन्द्र कुमार द्विवेदी, आई.टी.एस. (1993) को 10 सितम्बर, 2012 के पूर्वाह्न से 09.09.2017 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

उत्तम प्रकाश, अवर सचिव

सं. ए-42018/45/2009-स्था. I--सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) के अनुसार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के केन्द्रीय जन-सूचना अधिकारियों की संशोधित सूची इस प्रकार है :--

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

क्रम सं.	ब्यूरो/प्रभाग	अधिकारी का नाम	पदनाम	दूरभाष संख्या	विषय मामला
1	2	3	4	5	6
		सर्वश्री			
1.	प्रशासन	उत्तम प्रकाश	अवर सचिव	23382184	(i) मंत्रालय का प्रशासन/स्थापना (ii) विवेकाधीन निधि से संबंधित सभी मामले।
2.	अनुसूचित जाति विकास एवं मीडिया	पी. एल. नेगी	निदेशक	23385491	(i) सतर्कता यूनिट (ii) डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान (iii) बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान (iv) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (v) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (vi) अनुसूचित जाति विकास निगम से संबंधित सभी मामले।
3.		चैतन्य मूर्ति	निदेशक	23070095	(i) हाथ से मैला साफ करने वाले व्यक्तियों के लिए पुनर्वास योजना (ii) दलित कार्य संबंधी मंत्रियों की समिति से संबंधित कार्य (iii) कारपोरेट सैल (iv) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (v) निजी क्षेत्र में सकारात्मक कार्यवाई, आरक्षण, और (vi) संसदीय कार्य से संबंधित सभी मामले।
4.		ज्ञानेन्द्र कुमार द्विवेदी	निदेशक	23070094	(i) अनुसूचित जाति उप योजना (ii) अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता संबंधी योजना से संबंधित सभी मामले।
5.		शाम सुन्दर गुप्ता	उप सचिव	23387690	(i) अनुसूचित जाति के बालक एवं बालिकाओं के लिए बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (ii) अनुसूचित जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए कोचिंग एवं संबद्ध योजना (iii) उत्कृष्ट श्रेणी शिक्षा (iv) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए योग्यता उन्नयन से संबंधित सभी मामले।
6.		संदीप कुमार गुप्ता	उप सचिव	23389474	(i) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (ii) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना (iii) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना (iv) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना (v) अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना (vi) अनुसूचित जाति विकास ब्यूरो के स्वचलन से संबंधित सभी मामले।
7.		एम. ए. मुरलीधरन	उप सचिव	23388519	(i) एनसीएससी से संबंधित प्रशासनिक कार्य, संयुक्त संवर्ग (ii) अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की योजना (iii) आरआई सैल और (iv) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग से संबंधित सभी मामले।

1	2	3	4	5	6
8.		कन्हैया लाल	अवर सचिव	23388511	(i) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1956 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा (ii) अनुसूचित जातियों की सूचियों के संशोधन से संबंधित सभी मामले।
9.	समाज रक्षा	लाल संगलूर	निदेशक	23383256	(i) "मद्यपान एवं पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण संबंधी योजना" और "वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम योजना" के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान की स्वीकृति (ii) वरिष्ठ नागरिक एवं नशीली दवा दुरुपयोग निवारण से संबंधित नीतिगत मामले (iii) राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के प्रशासनिक मामलों से संबंधित सभी मामले।
10.		जे. के. साहू	अवर सचिव	23388837	(i) समाज रक्षा-समन्वयन (ii) माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 का कार्यान्वयन (iii) निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों की स्थापना के लिए प्रस्तावित नई योजना से संबंधित सभी मामले।
11.		औजेन्द्र सिंह	अवर सचिव	23073703	(i) भिक्षावृत्ति (ii) ट्रांसजेंडर/नपुंसक (iii) एनएसएसओ के सहयोग से देश में नशीली दवा दुरुपयोग के विस्तार, पैटर्न एवं रुझानों पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण से संबंधित सभी मामले।
12.	पिछड़ा वर्ग	सुरेखा साहू	निदेशक	23382774	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के राहत एवं पुनर्वास से संबंधित सभी मामले।
13.	ई. वी. थामस	अवर सचिव	23753406		(i) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिक-पूर्व/मैट्रिकोत्तर छात्र-वृत्तियों की केन्द्रीय प्रायोजित योजना (ii) अन्य पिछड़े वर्गों के बालक एवं बालिकाओं हेतु छात्रावास निर्माण की योजना और (iii) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की केन्द्रीय क्षेत्र योजना से संबंधित सभी मामले।
14.		के. एन. मिश्रा	अवर सचिव	23753407	(i) एनबीसीएफडीसी (ii) राष्ट्रीय अनधिसूचित खानाबदोश एवं अर्ध-खानाबदोश जनजाति आयोग और (iii) पिछड़ा वर्ग ब्यूरो के समन्वयन से संबंधित सभी मामले।
15.		सी. वी. एल. एन. प्रसाद	उप सचिव	23753405	(i) अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों का सम्मिलन तथा उससे संबंधित मामले (ii) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (iii) आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग (iv) अन्य पिछड़े वर्गों की नीति से संबंधित सभी मामले।
16.	आईएफडी	टी. वी. ए. राम	उप सचिव	23387430	आंतरिक वित्त प्रभाग से संबंधित सभी विषय।
17.		सन्यासी प्रधान	उप सचिव	23389474	आंतरिक वित्त प्रभाग एवं बजट से संबंधित सभी मामले।
18.	समन्वयन एवं योजना	आर. कृष्ण मूर्ति	उप सचिव	23070094	समन्वयन यूनिट से संबंधित सभी मामले।
19.		डॉ. (सुश्री) मधुवाला	वरिष्ठ	23070907	(i) अनुसंधान अध्ययन (ii) आयोजना (iii) मूल्यांकन एवं मानीटरींग (iv) मंत्रालय के सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की सांख्यिकी से संबंधित सभी मामले।
20.		अरविन्द पी. सिंह	अवर सचिव	23386981	समन्वयन एवं सुविधा केन्द्र (लोक शिकायत एवं आरटीआई) से संबंधित सभी मामले।

1	2	3	4	5	6
विकलांगजन कार्य विभाग					
21.	विकलांगजन कार्य विभाग	के. वी. एस. राव	निदेशक	23387539	(i) पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन (ii) विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार (iii) न्यायालय मामले (iv) राष्ट्रीय नीति पर उत्तरवर्ती कार्रवाई (v) विकलांग व्यक्तियों के लिए सुगम्यता (vi) पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 का संशोधन (vii) सीसीडीपी कार्यालय (viii) अंतर्राष्ट्रीय समन्वयन—निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, जीपीडीडी, द्विपक्षीय परियोजनाएं (ix) विकलांग व्यक्तियों के लिए निजी क्षेत्र में नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन योजना (x) भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 (xi) भारतीय पुनर्वास परिषद (xii) न्यास निधि (xiii) पीडब्ल्यूडी अधिनियम के कार्यान्वयन की योजना से संबंधित सभी मामले।
22.		ओ. पी. डोगरा	उप सचिव	23071374	(i) दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना (ii) जांच समिति (iii) डीडीआरसी से संबंधित सभी मामले।
23.		जगदीश कुमार	उप सचिव	23386220	(i) संयुक्त पुनर्वास केन्द्रों सहित राष्ट्रीय संस्थान (ii) भारतीय मेरूदंड क्षति केन्द्र (iii) एडिप योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक यंत्रों एवं उपकरणों की खरीद हेतु सहायता की योजना (iv) भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (v) द्विपक्षीय समझौता और (vi) डीआरसी/आरआरटीसी के बंद होने के बाद उनके लंबित मामलों से संबंधित सभी मामले।
24.		श्रीमती निधि खरे	निदेशक	23383464	(i) राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (ii) राष्ट्रीय निधि (iii) राष्ट्रीय विकलांगजन वित्त एवं विकास निगम (iv) विकलांगता प्रभाग का समन्वयन (v) विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (vi) विकलांगता कार्य के समन्वयन से संबंधित सभी मामलों से संबंधित सभी मामले।

किसी सीपीआईओ के अवकाश आदि के दौरान उनका संपर्क अधिकारी सीपीआईओ के रूप में कार्य करेगा।

उत्तम प्रकाश
अवर सचिव

दिनांक 4 अक्टूबर 2012

सं. ए-12022/01/2010-स्था. II--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 3/3/2011-के.से.-II (क) दिनांक 20.3.2012 के अनुसरण में, राष्ट्रपति इस मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित प्रधान निजी सचिवों (तदर्थ) तथा निजी सचिव को 20 मार्च, 2012 के पूर्वाह्न से नियमित आधार पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के प्रधान निजी सचिव (समूह "क" राजपत्रित) के पद पर नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम और पदनाम	मंत्रालय/विभाग जहां कार्यरत हैं	मंत्रालय/विभाग जहां नामित किया गया है
1	2	3	4
	(श्री/श्रीमती/सुश्री)		
1.	एस. सुदर्शन, पीपीएस (तदर्थ)	सा. न्याय और अधि.	सा. न्याय और अधि.
2.	जे. एस. आहलुवालिया, पीपीएस (तदर्थ)	सा. न्याय और अधि.	सा. न्याय और अधि.

1	2	3	4
3. देवेन्द्र कुमार, पीपीएस (तदर्थ)	सा. न्याय और अधि.	सा. न्याय और अधि.	
4. एस. के. भाटिया, पीपीएस (तदर्थ)	सा. न्याय और अधि. (जनजातीय कार्य मंत्रालय)	(जनजातीय कार्य मंत्रालय)*	
5. राजकुमार, पीपीएस (तदर्थ)	सा. न्याय और अधि. (जनजातीय कार्य मंत्रालय)	(जनजातीय कार्य मंत्रालय)*	
6. के. पी. सिंह, पीएस	सा. न्याय और अधि.	सा. न्याय और अधि.	
7. आर. के. आचार्य पीपीएस (तदर्थ)	सा. न्याय और अधि. (राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग)	जनजातीय कार्य मंत्रालय (राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग)*	
8. किरन जोली, पीपीएस (तदर्थ)	सा. न्याय और अधि.	सा. न्याय और अधि.	
9. राम शिरोमणि सरोज, पीपीएस (तदर्थ)	सा. न्याय और अधि. (जनजातीय कार्य मंत्रालय)	(जनजातीय कार्य मंत्रालय)*	
10. संजय चोपड़ा, पीपीएस (तदर्थ)	सा. न्याय और अधि.	सा. न्याय और अधि.	
11. ठाकुर सिंह नेगी, पीपीएस (तदर्थ)	सा. न्याय और अधि. (जनजातीय कार्य मंत्रालय)	(जनजातीय कार्य मंत्रालय)*	

*कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 जुलाई, 2012 के आदेश सं. 25/1/2009-सीएस 1 (पी) जो इस मंत्रालय से जनजातीय कार्य मंत्रालय के संवर्ग पृथक्करण के संबंध में है, के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवा और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के विभिन्न ग्रेडों के वर्तमान पदाधिकारी संबंधित संवर्ग एककों में ही तैनात रहेंगे जहां वे पहले से कार्यरत हैं।

उत्तम प्रकाश, अवर सचिव

दिनांक 5 अक्टूबर 2012

सं. ए-42018/45/2009-स्था. I--सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अनुसार, और दिनांक 11.03.2010 की इसकी अधिसूचना संख्या ए-43018/1/2008-स्था.-I के अधिक्रमण में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एतद्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई कार्य की मदों के संबंध में उनको अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित करता है :--

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

क्रम सं.	नाम और पदनाम	पता एवं दूरभाष संख्या	कार्य आवंटन
1	2	3	4
1.	श्री संजीव कुमार, संयुक्त सचिव (एससीडी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	कमरा संख्या 613, ए विंग, शस्त्री भवन, नई दिल्ली दूरभाष सं. 011-23383853	(i) अनुसूचित जाति विकास प्रभाग (ii) संसद (iii) सदस्य सचिव, डॉ अम्बेडकर प्रतिष्ठान
2.	श्री टी. आर. मीणा, संयुक्त सचिव (एसडी) एवं सीबीओ सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	कमरा संख्या 610, ए विंग, शस्त्री भवन, नई दिल्ली दूरभाष सं. 011-23387924	(i) समाज रक्षा (ii) सतर्कता
3.	सुश्री गजाला मीनाई, संयुक्त सचिव (बीसी, समन्वय, मीडिया एवं आरएंडआर), सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	कमरा संख्या 616, ए विंग, शस्त्री भवन, नई दिल्ली दूरभाष सं. 011-23387269	(i) पिछड़ा वर्ग प्रभाग (ii) मीडिया (iii) समन्वय { (क) गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित योजना

1	2	3	4
			स्कीमों से संबंधित सामान्य/नीतिगत मुद्दे, (ख) वार्षिक सामाजिक सम्पादक सम्मेलन, (ग) मंत्रालय के वेबसाइट का प्रबंधन और (घ) एक से अधिक ब्यूरो के सीएजी लेख-परीक्षा पैरा तथा पीएसी रिपोर्ट से संबंधित कार्य सहित)।
		(iv)	नर्मदा परियोजना के आरएंडआर से संबंधित कार्य।
4. डॉ. आर. एस. मोना, संयुक्त सचिव, (स्वस्थाने), सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	कमरा संख्या 637, ए विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली दूरभाष सं. 011-23073552	(i) प्रशासन (ii) राजभाषा (iii) सुविधा केन्द्र (लोक शिकायत एवं आरटीआई)	
5. डॉ. जे. सी. शर्मा, आर्थिक सलाहकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	कमरा संख्या 611, ए विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली दूरभाष सं. 011-23383004	(i) आयोजना प्रभाग (योजना एवं मानीटरिंग) (ii) (क) कौशल विकास से संबंधित पहलों/कार्यक्रमों तथा (ख) यूआईडीएआई/आधार से संबंधित समन्वय कार्य।	
6. श्री मुकुट सिंह, डीडीजी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	वेस्ट ब्लॉक-8, विंग-II, द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली, दूरभाष सं. 011-26109063	सांख्यिकी प्रभाग (सांख्यिकी, अनुसंधान एवं मूल्यांकन)	
विकलांगजन कार्य विभाग			
1. श्री पंकज जोशी, विकलांगजन कार्य विभाग	कमरा संख्या 612, ए विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली दूरभाष सं. 011-23384284	विकलांगता विकास	

उत्तम-प्रकाश, अवर सचिव

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 13 सितम्बर 2012

सं. ए-32014/1/2012-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, दूरसंचार विभाग के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग की चयन सूची 2003 के निम्नलिखित सहायकों को इस विभाग में दिनांक 12 सितंबर, 2012 के पूर्वाह्न से आरंभ में दिनांक 31.12.2012 की अवधि तक 9,300--34,800/- रु. के वेतनमान में 4,800/- रुपए ग्रेड वेतन

सहित वेतन बैंड-2 में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं :-

क्र.सं.	नाम	श्रेणी
1.	श्री बी. एस. चौहान	सामान्य
2.	श्री ओम प्रकाश चंचल	अन्य पिछड़ा वर्ग
3.	श्री आर. पी. दुहान	सामान्य
4.	श्री. वी. सोमासुंदरम	सामान्य
5.	श्री सी. के. श्रीवास्तव	सामान्य

2. अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :--

- (i) तदर्थ नियुक्ति से इस ग्रेड में अनिश्चित अवधि तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में नाम शामिल करने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- (ii) यह तदर्थ व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक वरिष्ठता कोटा और/अथवा सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (एलडीसीई) के माध्यम से अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाते। तदर्थ आधार पर नियुक्त व्यक्ति इन दोनों श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त न करने पर ऐसे नियमित अधिकारी के उपलब्ध होने पर सहायक ग्रेड में उस दिनांक को प्रत्यावर्तित कर दिए जाएंगे जिस दिनांक को वे (नियमित अनुभाग अधिकारी) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा आर्बिट्रि अपने संबंधित संवर्ग में कार्यभार ग्रहण कर लेते हैं।

विमल, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 19 सितम्बर 2012

सं. 41/8/2001-प्रशा.-II--श्री ए. के. रॉय, अभियंता व श्री के. के. दुबे, अभियंता बेतार अनुश्रवण संगठन, दूरसंचार विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 31 जुलाई, 2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो गए

निर्मला देव, अवर सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 8 अक्टूबर 2012

सं. ई.(जी.पी)2009/3/1--राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेल के लेखा विभाग के निम्नलिखित ग्रुप-बी अधिकारी की, उल्लिखित रेलवे पर 01.03.2012 से भारतीय रेल लेखा सेवा (आई.आर.ए.एस.) के कनिष्ठ वेतनमान में सहर्ष नियुक्ति करते हैं :--

2011-12 के लिए पैनल

एम. सेल्वामुथुराई, द.रे.

आर. सी. जाट, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 10 अक्टूबर 2012

सं. ईआरबी-1/2010/10/4--रेलवे बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30.09.2012 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं :--

(i) श्री रंजन कुमार जैन, सलाहकार (अवसंरचना)

(ii) सुश्री परमजीत कौर-1, प्रमुख निजी सचिव

(iii) श्रीमती जसबीर कौर, अनुभाग अधिकारी

आर. सी. जाट, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-1/2010/10/4--सुश्री दीनाम्मा बेबी, अनुभाग अधिकारी, रेलवे बोर्ड, 01.10.2012 के पूर्वाह्न से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

आर. सी. जाट, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-1/2010/10/4--सुश्री लक्ष्मी वेणुगोपाल, निजी सचिव, रेलवे बोर्ड, 01.10.2012 के पूर्वाह्न से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

आर. सी. जाट, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

पोत परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 सितम्बर 2012

सं. एल.एच-21013/1/2012-एस एल--राष्ट्रपति, अधीक्षक के ग्रेड के निम्नलिखित अधिकारियों को, दीपस्तंभ एवं दीपपोत महानिदेशालय में, प्रत्येक के सामने इंगित की गई तिथियों से, पीबी-2, रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड पे रु. 4,600/- (संशोधित) के वेतनमान में पीबी-2, रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड पे रु. 4,600/- (संशोधित) रु. 7,450-225-11,500/- (पूर्व संशोधित) के वेतनमान में कार्यपालक अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं :--

(1) श्री पी. जे. नखवा, कार्यपालक अधिकारी, 22.08.2012

(2) श्री वाई. के. बदोला, कार्यपालक अधिकारी, 22.08.2012

(3) श्रीमती कंचन आनंद, कार्यपालक अधिकारी, 24.08.2012

कंचन बाला हमज़ा, अवर सचिव

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 अक्टूबर 2012

सं. ए-32014/1/2012-ई.-I(बी)--राष्ट्रपति, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.07.2012 के का.ज्ञा. सं. 4/2/2012-सीएस.-II(ए) के तहत वरिष्ठ कोटा के लिए जोनिंग स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग (भाग) के आशुलिपिक ग्रेड 'क' और 'ख' (विलयित) की वर्ष 2010 की चयन सूची में उनका नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग की नियमित निजी सचिव/निजी सचिव (तदर्थ) श्रीमती अरविंद कौर पंथेय को दिनांक 26.09.2012 (पूर्वाह्न) से 9,300--34,800/- रुपए के

पे बैंड-2 + 4,800/- रुपए के ग्रेड पे में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में नियमित आधार पर निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

ए. आर. मीणा, अवर सचिव

दिनांक 3 अक्टूबर 2012

सं. ए-38013/04/2012-ई.-I--सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री दयानंद दिनांक 01.10.2012 (पूर्वाह्न) से स्वेच्छापूर्वक सेवानिवृत्त हो गए।

एच. आर. मीणा, अवर सचिव

दिनांक 4 अक्टूबर 2012

सं. ए-12033/1/2010-ई.-I--राष्ट्रपति, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.08.2012 के का.ज्ञा. सं. 1/5/2012-ईओ(एसएम.1) के अनुसरण में, श्री अलकेश कुमार शर्मा भा.प्र.से. (केएल : 90) को दिनांक 17.09.2012 (पूर्वाह्न) से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, 37,400--67,000/- रुपए के पे बैंड + 10,000/- रुपए के ग्रेड पे में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

ए. आर. मीणा, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 16 अगस्त 2012

सं. 351/2012 (फा. सं. 5/2/2007-प्रशा.-II)--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.07.2012 के कार्यालय आदेश सं. 4/14/2011-सी.एस.-I(डी) के तहत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में तदर्थ आधार पर पदोन्नति के परिणामस्वरूप, इस मंत्रालय में अवर सचिव के पद पर तैनात श्री शाम लाल (सीएसएल सं. 4807) को, दिनांक 01.08.2012 की (पूर्वाह्न) से ग्रेड पे 7,600/- रुपए के साथ 15,600--39,100/- रु. के वेतनमान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड में उप सचिव के पद नियुक्त करते हैं।

2. उप सचिव के पद पर नियुक्ति होने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक इस मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में तैनाती देकर उप सचिव (बजट) के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाता है।

एस. एस. बेदी, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 अक्टूबर 2012

सं. ए-32014/1/2011-प्रशा.-I(भाग)--राष्ट्रपति, सीएसएसएस कैडर के ग्रेड सी के निम्नलिखित नियमित स्टेनो (जो निजी सचिव के पद पर तदर्थ

आधार पर स्थानापन्न के तौर पर कार्य कर रहे थे), को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 जुलाई, 2012 के का. ज्ञा. सं. 4/2/2012-सीएस.-II(ए) के तहत वरिष्ठता कोट्य हेतु जोनिंग स्कीम के अंतर्गत चयन सूची 2010 (भाग) हेतु सीएसएसएस के निजी सचिव ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु उनका नामांकन किए जाने और उनके संबंधित मंत्रालय/विभाग से कार्यभार से मुक्त किए जाने के परिणामस्वरूप, शहरी विकास मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा में, नियमित आधार पर स्टेनो ग्रेड "ए एण्ड बी" (सम्मिलित) (निजी सचिव) के पद पर इस मंत्रालय में उनके प्रभार ग्रहण करने की तारीख से नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	मंत्रालय/विभाग जहां कार्यरत हैं	निजी सचिव का प्रभार ग्रहण करने की तारीख
----------	-----	---------------------------------	---

(सर्वश्री/श्रीमती)

1.	किरण लाकड़ा	राजस्व विभाग	28.09..2012 (पूर्वाह्न)
2.	वीणा भल्ला	रक्षा	28.09..2012 (पूर्वाह्न)
3.	सुनीता शर्मा	रक्षा	28.09..2012 (पूर्वाह्न)
4.	परमजीत जुनेजा	रक्षा	28.09..2012 (पूर्वाह्न)

जिनेन्द्र कुमार, अवर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर 2012

सं. ए-12025/12/2009-आईएसएच-II--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को वेतन बैंड-3 के 15,600--39,100/- + 7,600/- रुपए के ग्रेड वेतन में खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद में उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथि से अगले आदेशों तक उप निदेशक (वैद्युत) के पद पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	खान सुरक्षा उपनिदेशक (वैद्युत) ग्रेड में नियुक्ति की तिथि
----------	-----	---

1.	श्री एस. पुट्यराजु	27.01.2012
2.	श्री बिश्वनाथ बेहरा	30.01.2012
3.	श्री पलानीमलाई सी.	21.02.2012
4.	श्री आनंद अग्रवाल	26.03.2012
5.	श्री प्रकाश कुमार	26.03.2012
6.	श्री राजकुमार	23.04.2012

एस. के. सिंह, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 5th October 2012

No. RS/3/7/2012/104-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint the following persons presently in the grade of Editor in the Rajya Sabha Secretariat as Assistant Director (E&T) on regular basis in that Secretariat in the Pay Band-3 + Grade Pay of Rs. 6,600/- plus usual allowances as admissible under the rules with effect from the forenoon of dates mentioned against each and until further orders:—

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Shri Sobran Prasad | 29.09.2012 |
| 2. Shri Shyam Lal Hembrom | 04.10.2012 |

S. RANGARAJAN, Jt. Director

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 10th September 2012

No. A-19015/07/2012Ad-I.—The President is pleased to appoint Shri Ashish Kumar Srivastava, Senior Technical Assistant 'B' in the Defence Research and Development Establishment, Gwalior as Technical Officer in the revised pay band PB-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/- in the National Authority, Chemical Weapons Convention, Cabinet Secretariat on deputation basis for a period of three years with effect from the forenoon of 6th September, 2012 or until further orders, whichever is earlier.

K.J. SIBICHAN, Under Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 10th October 2012

No. A. 12025/27/2012-Adm.I.—The President is pleased to appoint Shri R.Y. Kadeer, Deputy Adviser (Monitoring Coal/Petroleum), Planning Commission as Joint Adviser (Project Appraisal) in Pay Band-4 Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/- on ad hoc basis for a period of one year w.e.f. 28.09.2012 or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. It is made clear that the above said ad hoc appointment will not bestow on Shri Kadeer any right to claim for regular appointment in the grade of Joint Adviser and also that any service rendered by him on ad hoc basis in the grade of Joint Adviser would neither count for the purpose of seniority in the grade of Joint Adviser nor towards eligibility for promotion to the next higher grade.

G. RAJEEV, Under Secy.

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

New Delhi-110001, the 11th October 2012

No. A-19012/59/12-UIDAI.—In pursuance of Unique Identification Authority of India, Planning Commission, New

Delhi Letter No.A-12013/21/(SO/HQ)/11-UIDAI dated 05.09.2012 and Director General of ITBP Office Order No. 1.201017/05/2012-Estt/8814-25 dated 27.09.2012, Shri Govind Singh has assumed the charge of Section Officer in HQ, Unique Identification Authority of India, Delhi w.e.f. 05.10.2012 (FN) in the pay band of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/- on deputation basis for a period of three years or until further orders whichever is earlier.

A. K. SARKAR, Dy. Director (Estt)

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 8th October 2012

No. A-19/G-A/111.—In pursuance of DoP&T's OM No. 14/3/2012-EO(MM.I), dated 25.09.2012 and consequent upon having been relieved from the National Disaster Management Authority vide Office Order No. 6-2/2010-Admn. dated 27.09.2012, Shri Sunder Singh Yadav, ITS:1990, is hereby appointed as Director (Training) in the Commission, in PB-4 (Rs. 37,400—67,000/-) with corresponding Grade Pay of Rs. 8,700/-, on deputation basis, w.e.f. 28.09.2012 (AN) for the balance period of his Central Deputation i.e. upto 21.05.2014 or until further orders, whichever is earlier.

B. C. PATRA, Under Secy.

MINISTRY OF LAW & JUSTICE

(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 4th October 2012

No. A-32014/5/2010-Admn.IV(LA)Vol.II.—Consequent upon inclusion in the Select List for the year 2010 of Private Secretary of CSSS under zoning scheme vide Department of Personnel & Training O.M. No. 4/2/2012-CS.II(A) dated 17.07.2012, the President is pleased to appoint following regular Personal Assistants (working as ad hoc PS) as Private Secretary on regular basis in CSSS cadre of this Department in the pay band PB-2 Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,800/- with effect from dates mentioned against their names:—

S. No.	Name	CSL No.	Cader presently working	Date of joining this Deptt.
1.	Ms. R. Radhika	284	Commerce	25.09.2012
2.	Sh. Uttam Kumar Majhi	439	Urban Development	24.08.2012 (AN)
3.	Shri H.C. Bhatheja	654	Ministry of Labour & Employment (O/o Chief Labour Commissioner)	10.09.2012 (AN)

ASHA SOTA, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 17th October 2012

No. I-14013/54/2012-IPS.I—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and in pursuance of order dated 23-08-2012 of the Hon'ble CAT, Chandigarh Bench in O.A. No. 348/HR/2012 filed by Shri Hukum Singh Vs. Union of India & Others, the President is pleased to appoint Shri Hukum Singh (Date of Birth : 02.06.1953), a former member of the Haryana Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate him to the Haryana cadre under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954.

2. The appointment will take effect from the date of issue of this notification.

PRASHANT NIKAM, Director (Police)

New Delhi, the 17th September 2012

No. A-32014/5/2012-Ad.I(A)—The President is pleased to appoint Shri G. Rajkumar, Private Secretary of CSSS of Department of Telecommunications Cadre Unit as Principal Private Secretary on regular basis in the Ministry of Home Affairs Cadre Unit w.e.f. the forenoon of 14th September 2012, consequent upon inclusion of his name in the Select List of Principal Private Secretary for the Select List Year 2010 in pursuance of the DoPT's OM No. 3/3/2011-CS.II(A) (Pt.) dated 29.08.2012.

2. The order of seniority of Shri G. Rajkumar, Principal Private Secretary has been fixed at Sl. No. 586A in the respective Annexure to the DoPT's O.M. No. 3/3/2011-CS.II(A) dated 20th March 2012, by the DoPT vide its O.M. No. 3/3/2011-CS.II(A) (Pt.) dated 29.08.2012. His regular promotion as Principal Private Secretary is effective from the date of promotion of his next junior i.e. 20.03.2012 the date of promotion of Shri Benjamin Kisku (Sl. No. 587).

J. B. SHARMA, Under Secy.

The October 2012

No. 20/G/3142-Ad.I—The President announces the death of Shri Tara Chand, a Section Officer of Central Secretariat Service Cadre of Ministry of Home Affairs, New Delhi, on 31.08.2012.

J. B. SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 10th October 2012

No. 24013/91/2005-IPS.II—The President is pleased to invoke the provisions of rule 7(2) of the All India Services (Leave) Rules, 1955 in respect of Shri Anubhav, a member

of the Indian Police Service borne on the Joint Cadre of Manipur-Tripura (MT:2000), for his deemed resignation from Indian Police Service with immediate effect.

K. NATARAJAN, Under Secy.

DISASTER MANAGEMENT DIVISION

New Delhi-110001, the 4th October 2012

No. 1-45011/16/2004-Ad (CD)—The President is pleased to appoint Shri Shamim, Deputy Director, National Fire Service College (NFSC), Nagpur, Ministry of Home Affairs as Director in the same institute on promotion basis in the pay scale of Rs. 12,000—16,500/- (pre-revised)/revised Pay Band-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/- w.e.f. 09.07.2012 till the date of his superannuation i.e. upto 30.11.2018 or until further orders, whichever is earlier.

SANJAY AGARWAL, Director

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 20th September 2012

No. 14012/24/2012-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, the following members of the Indian Administrative Service borne on the Tamil Nadu Cadre, in the Indian Administrative Service, with effect from the date (s) shown against them:—

Sl. No.	Name	Batch	Date of confirmation
1.	Sh. V. Lalithalakshmi	2008	01.09.2010
2.	Sh. Wadnere Prashant Mukund	2008	01.09.2010

NAVNEET MISRA, Under Secy.

The 3rd October 2012

No. 11019/37/2007-AIS-III—The President is pleased to direct that Shri Anil Yadav, a member of the Indian Administrative Service, borne on the Cadre of Madhya Pradesh (MP : 99) is deemed to have resigned from the Indian Administrative Service with immediate effect in terms of rule 7(2) of the All India Services (Leave) Rules, 1955.

NAVNEET MISRA, Under Secy.

The 8th October 2012

No. 23012/13/2012-AIS-III—Ms. Ghodke Rashmi Jayendra, IAS (TN: 2010) has been permitted to change her name from Ms. Ghodke Rashmi Jayendra to Smt. Rashmi

Siddharth Zagade. She will accordingly be recognised as Smt. Rashmi Siddharth Zagade for all official purposes.

NAVNEET MISRA, Under Secy.

New Delhi, the 28th September 2012

No. 14015/05/2011-AIS(I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service officers of Chhattisgarh containing the following names prepared on 24th February, 2012 under Regulation 5(5) and approved on 16.08.2012, under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in IAS Cadre of Chhattisgarh under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2010 (against the vacancies of 2010) :—

Select List of 2010 (Against vacancies of 2010)

S. No.	Name	Date of Birth
	S/Shri	
1.*	Onkar Singh (ST)	03.11.1959
2.*	Indul Ram Dehari (ST)	28.07.1960
3.	A. Kulbhushan Toppo (ST)	17.09.1962
4.	Anil Kumar Tuteja	20.05.1963
5.	Narendra Kumar Shukla	22.05.1960
6.	Niranjan Das	04.01.1963
7.	Emil Lakra (ST)	06.09.1962
8.	Govindram Churendra (ST)	14.12.1964
9.	Umesh Kumar Agrawal	29.06.1962
10.	Dhananjay Devangan	08.02.1963
11.	Dr. S.K. Alang	08.07.1964
12.	Chhattar Singh Dehre (SC)	27.10.1960
13.	Taaman Singh Sonwani (SC)	09.09.1961
14.#	Anand Kumar Masih (ST)	05.08.1964

* The names at officers at Sl. No. 1&2 have been included in the Select List subject to clearance in the criminal proceedings pending against them and grant of integrity certificate by the State Government.

#The name of the officer at Sl. No. 14 has been included in the Select List subject to grant of integrity certificate by the State Government.

2. The above appointments are subject to the outcome of the Writ Petition No. 3371/2006 filed by State Administrative Services Association & others versus Union of India & others before Hon'ble High Court of Chhattisgarh, Bilaspur.

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

No. 14015/5/2011-AIS (I)-B—In exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Chhattisgarh to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2010 (Against the vacancies of 2010) on probation until further orders and to allocate them to the Chhattisgarh Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Select List of 2010 (Against vacancies of 2010)

S. No.	Name
	S/Shri
1.	A. Kulbhushan Toppo (ST)
2.	Anil Kumar Tuteja
3.	Narendra Kumar Shukla
4.	Niranjan Das
5.	Emil Lakra (ST)
6.	Govindram Churendra (ST)
7.	Umesh Kumar Agrawal
8.	Dhananjay Devangan
9.	Dr. S. K. Alang
10.	Chhattar Singh Dehre (SC)
11.	Taaman Singh Sonwani (SC)

2. The above appointments are subject to the outcome of the Writ Petition No. 3371/2006 filed by State Administrative Services Association & others Versus Union of India & others before Hon'ble High Court of Chhattisgarh, Bilaspur.

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

New Delhi, the 4th October 2012

No. 13017/10/2007-AIS (I)—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the

Government of Tamil Nadu and the Ministry of Home Affairs the Central Govt. has approved extension of inter cadre deputation of Shri R. Lalvena, IAS (TN : 01) from Tamil Nadu cadre to AGMUT cadre (Mizoram segment) for a period of two years beyond 10.08.2012.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

The 9th October 2012

No. 13017/40/2012-AIS (I)—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Governments of Maharashtra and Uttar Pradesh, the Central Govt. has approved inter cadre deputation of Ms. Jayshree Bhoj, IAS (MH : 03) from Maharashtra cadre to Uttar Pradesh cadre for a period of five years from the date of assumption of charge or until further orders, whichever is earlier.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

New Delhi, the 10th October 2012

No. 24012/17/2012-Estt. (B)—The President is pleased to appoint Shri Kishor Baburao Jagtap, CPES (98), Deputy Director, Central Electricity Authority, New Delhi as Regional Director, Staff Selection Commission (Western Region), Mumbai for a period of four years with effect from 21st September, 2012 (Forenoon) or until further orders, whichever is earlier.

U. S. CHATTOPADHYAY, Under Secy.

DEPARTMENT OF PENSION AND PENSIONERS' WELFARE

New Delhi, the 10th October 2012

No. 19011/4/2012-Admn.I—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 4/2/2012-CS.II (A) dated 17th July, 2012, the President is pleased to appoint Smt. Sunita V. Ramteke, Private Secretary of Central Secretariat Stenographer Service (CSSS) on regular basis in the Select List of Steno Grade 'A&B' (Merged) of CSSS of the Select List Year 2010 under Zoning Scheme for Seniority Quota (SQ) in the Department of Pension and Pensioners' Welfare with effect from the forenoon of 31.08.2012.

S. P. KAKKAR, Under Secy.

No. 19011/5/2012-Admn.I—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 4/2/2012-CS.II (A) dated 17th July, 2012, the President is pleased to appoint Shri Daya Shankar Prasad, Private Secretary of Central Secretariat Stenographer Service (CSSS) on regular basis in the Select

List of Steno Grade 'A&B' (Merged) of CSSS of the Select List Year 2010 under Zoning Scheme for Seniority Quota (SQ) in the Department of Pension and Pensioners' Welfare with effect from the forenoon of 27.08.2012.

S. P. KAKKAR, Under Secy.

No. 19011/6/2012-Admn.I—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 4/2/2012-CS.II (A) dated 17th July, 2012, the President is pleased to appoint Shri Sandip Govind Ramteke, Private Secretary of Central Secretariat Stenographer Service (CSSS) on regular basis in the Select List of Steno Grade 'A&B' (Merged) of CSSS of the Select List Year 2010 under Zoning Scheme for Seniority Quota (SQ) in the Department of Pension and Pensioners' Welfare with effect from the afternoon of 10.09.2012.

S. P. KAKKAR, Under Secy.

MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS

New Delhi, the 11th October 2012

No. A-19011/1/2011-PA—Consequent upon his transfer to the Ministry of Tourism vide the Department of Personnel & Training's Communication No. 1/6/2012-EQ(SM-I) dated 21st September, 2012, Shri Parvez Dewan, IAS (J&K : 77) has relinquished charge of the post of Secretary, Ministry of Overseas Indian Affairs, New Delhi with effect from the forenoon of 4th October, 2012.

NEHJAMANG SIMTE, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 24th September 2012

No. 20/2012 (F. No. A-19013/36/2012-Ad.IA)—In pursuance to Department of Expenditure CAS's O.M. No. A-12026/8/2010-CAS dated 20th September, 2012 and DoP&T's O.M. No. 4/2/2012-CS.II (A) dated 17.7.2012 and on inclusion in the Select List (Seniority Quota) of the year 2010 the President is pleased to appoint Ms. Shanta Kumari, a regular Steno Grade 'C' of CSSS heretofore officiating as PS on ad hoc basis in Archaeological Survey of India, as Steno Grade 'A&B' (Merged) of CSSS on regular basis in the Department of Revenue with effect from 13.09.2012 (F/N).

BHUPINDER SINGH, Under Secy.

No. 21/2012 (F. No. A-19013/37/2012-Ad.IA)—In pursuance to Department of Expenditure CAS's O.M. No. A-12026/8/2010-CAS dated 20th September, 2012 and DoP&T's O.M. No. 4/2/2012-CS.II (A) dated 17.7.2012 and on inclusion in the Select List (Seniority Quota) of the year 2010 the President is pleased to appoint Ms. Honey Rani Bhatnagar, a regular

Steno Grade 'C' of CSSS heretofore officiating as PS on ad hoc basis in Department of Commerce as Steno Grade 'A&B' (Merged) of CSSS on regular basis in the Department of Revenue with effect from 04.09.2012 (A/N).

BHUPINDER SINGH, Under Secy.

No. 22/2012 (F. No. A-19013/35/2012-Ad.IA)—In pursuance to Department of Expenditure, CAS's O.M. No. A-12026/8/2010-CAS dated 20th September, 2012 and DoP&T's O.M. No. 4/2/2012-CS.II (A) dated 17.7.2012 and on inclusion in the Select List (Seniority Quota) of the year 2010 the President is pleased to appoint Shri Manoj Kumar Mehra, a regular Steno Grade 'C' of CSSS heretofore officiating as PS on ad hoc basis in Ministry of Home Affairs as Steno Grade 'A&B' (Merged) of CSSS on regular basis in the Department of Revenue with effect from 07.09.2012 (A/N).

BHUPINDER SINGH, Under Secy.

New Delhi, the 28th September 2012

No. 91 : (F. No. A-19011/19/2012-Ad.I)—The President is pleased to appoint Ms. Madhu Mahajan, IRS (IT : 82026), as Commissioner (Vigilance), Central Board of Direct Taxes in the Pay Band-4 (Rs. 37,400—67,000/-) with Grade Pay of Rs. 10,000/- with effect from 17.09.2012 (FN) and until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 3rd October 2012

No. 92 : (F. No. A-19013/16/2012-Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri Akshay Joshi, (IRS : C&CE), as Under Secretary in the Central Board of Excise & Customs, Department of Revenue for a period of three years w.e.f. 24.09.2012 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 93 : (F. No. A-38011/6/2012-Ad.I)—Shri K. Madhavan Nair, an officer of the Indian Revenue Service (IT : 75031), posted as Member, CBDT in the Department of Revenue retired from Government Service on 30.09.2012 (AN) on attaining the age of superannuation.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 5th October 2012

No. 95 : (F. No. A-19011/20/2012-Ad.I)—The President is pleased to appoint Ms. Rashmi Verma, an officer of the Indian Administrative Service (BH : 82), as Additional Secretary to the Government of India in the Department of

Revenue, Ministry of Finance in the HAG Scale of Pay of Rs. 67,000—79,000/- with effect from 28.09.2012 (AN) and until further orders.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 10th October 2012

No. 2/2012-E.S. [F. No. A-12026/3/2012-SO (ES Cell)]—The President is pleased to entrust the additional charge of the post of Chairperson, Appellate Tribunal under the Prevention of Money-Laundering Act, 2002 (PMLA) to Justice Shri Anil Kumar, Chairman, Appellate Tribunal for Forfeited Property (ATFP) for a period of six months with effect from 05.10.2012 (Forenoon) or till a Chairperson is appointed in Appellate Tribunal under PMLA on full time basis, whichever is earlier.

BIPLAB KUMAR NASKAR, Under Secy.

New Delhi, the 11th October 2012

No. A-19011/1/2012-Admn.III—The President is pleased to appoint Shri Ajay Narayan Jha, IAS (MT : 82) as Officer on Special Duty in the Advance Cell of the 14th Finance Commission, in the rank and Pay of Additional Secretary with effect from the afternoon of 28th September, 2012 till the currency of the post or until further orders, whichever is earlier.

RAM SINGH, Under Secy.

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 27th September 2012

No. A-32014/2/2012-Estt.—The President is pleased to appoint the following Assistants of CSS cadre of Ministry of Finance as Section Officers in the Department of Financial Services, on adhoc basis with effect from 20th September, 2012 or until further orders :—

- (1) Shri Gaurav Shukla
- (2) Shri Ravinder Kumar
- (3) Shri Yogesh Kumar

The extension of adhoc promotion will be subject to the following terms and conditions :—

- (i) The period of adhoc promotion would be upto 31.12.2012 or till the regular Section Officers are made available, whichever is earlier;
- (ii) The adhoc appointment shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers grade of CSS;

- (iii) Ad-hoc appointments would continue till regular candidates in Section Officer Grade are available either through Seniority Quota or Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad-hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistant's Grade on availability of such regular officers from the date they (regular Section Officers) join duty in their respective cadre units allotted to them by the Department.

MRITUNJAY SINGH, Under Secy.

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 5th October 2012

No. A-12026/1/2011-Ad.I—The President is pleased to appoint the following Steno Grade 'C' (PA) (officiating as ad-hoc PS) in the CSSS cadre to the post of Steno Grade 'A&B' (merged) (PS) in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + 4,800/- (Grade Pay) on regular basis against the Seniority Quota (SQ) for the Select List Year 2010 (part) with effect from the dates indicated against their names :—

S. No.	CSL No.	Name of officials	with effect from
		S/Shri/Smt./Ms.	
1.	746	Umraw Singh	07.09.2012 (F/N)
2.	1227	Sunita Lakra	14.09.2012 (F/N)

BIPLAB KUMAR ROY, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 1st October 2012

No. A-32015/7/2012-Cadre—The President is pleased to appoint Smt. Veena Beri, Private Secretary (ad-hoc) of CSSS as regular Private Secretary of CSSS in PB-2 (Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/-) in Supply Division for the Select List year 2010 against the Seniority Quota w.e.f. 27.09.2012 (FN).

2. Smt. Veena Beri, PS of CSSS, is posted in DGS&D.

SANJOY SHANKAR, Under Secy.

MINISTRY OF TEXTILES

(OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER)

Mumbai-400020, the 8th October 2012

No. 5(23)/2011/EST-I—Sanction of the Competent Authority (Minister of Textiles) is hereby accorded to the

redesignation of the following categories of posts alongwith their present incumbents thereof and without any changes in the Pay Scale and status attached to these posts, in the Office of the Textile Commissioner, Government of India, Ministry of Textiles, Mumbai, with effect from 15.06.2004 :—

Sl. No.	Existing Designation of Posts	Pay Scale (Rs.)	New Designation of Posts
1.	Director (Production & Development)	12,000-375-16,500/-	Director (Technical)
2.	Deputy Director (Production & Development)	10,000-325-15,200/-	Deputy Director (Technical)
3.	Deputy Director (Chemical Processing)	10,000-325-15,200/-	Deputy Director (Technical - Chemical Processing)
4.	Assistant Director Grade-I (Production & Development)	8,000-275-13,500/-	Assistant Director Grade-I (Technical)
5.	Assistant Director Grade-II (Production & Development)	6,500-200-10,500/-	Assistant Director Grade-II (Technical)
6.	Hindi Officer	6,500-200-10,500/-	Assistant Director Grade-II (Official Language)
7.	Superintendent	5,500-175-9,000/-	Office Superintendent
8.	Economic Investigator	5,500-175-9,000/-	Economic Officer
9.	Costing Investigator	5,500-175-9,000/-	Costing Officer
10.	Technical Investigator	5,500-175-9,000/-	Technical Officer
11.	Senior Gestetner Operator	3,050-75-3,950-80-4,590/-	Gestetner-cum-Photo-copy Machine Operator

This also issues with the concurrence of AS&FA/Finance Division, Ministry of Textiles, vide Dy. No. FD (Textiles)/540/04 dated 25th May, 2004.

NARESH KUMAR, Dy. Director (Admn.)

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 8th August 2012

No. A.19011/12/2007-Estt.—On completion of his Central Deputation tenure, Shri Vivek Kumar, IAS (WB : 90), Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, is relieved of his duties in the Ministry w.e.f. the afternoon of 09.08.2012.

2. Shri Vivek Kumar has also been granted 02 months earned leave, w.e.f 13.08.2012 to 12.10.2012 (prefixing 10th, 11th and 12th August, 2012 as closed holidays). His services are placed at the disposal of Government of West Bengal on completion of the aforesaid leave period.

K. M. SINGH, Under Secy.

The 22nd August 2012

No. A.22011/2/2010-Estt.—In pursuance of DoPT's OM No. 2/2/2007-EO(MM-I) dated 21.8.2012, Shri Dependra Pathak, IPS (UT : 90), Director in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, is relieved of his duties in the Ministry w.e.f the forenoon of 22.08.2012.

2. Shri Pathak is requested to report to Ministry of Home Affairs, New Delhi.

K. M. SINGH, Under Secy.

The 19th September 2012

No. A-32011/1/2012-Estt.—In terms of Department of Personnel & Training's O. M. No. 4/2/2012-CS.II(A) dated 17th July, 2012 and on inclusion of her name in the Select List Year 2010 under Zoning Scheme for Seniority Quota (SQ), the President is pleased to appoint Smt. K. Madhavi, Private Secretary (Ad-hoc) of CSSS cadre of the Ministry of Defence (CSL No. 497) as Private Secretary of CSSS cadre of Ministry of Petroleum and Natural Gas in PB-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- on regular basis w.e.f the forenoon of 7th September, 2012.

K. M. SINGH, Under Secy.

No. A-32011/1/2012-Estt.—In terms of Department of Personnel & Training's O. M. No. 4/2/2012-CS.II(A) dated 17th July, 2012 and on inclusion of their name in the Select List Year 2010 under Zoning Scheme for Seniority Quota (SQ), the President is pleased to appoint the following Private Secretary (Ad-hoc) of CSSS cadre of the Ministry of Home Affairs as Private Secretary of CSSS cadre of Ministry of Petroleum and Natural Gas in PB-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- on regular basis w.e.f the afternoon of 7th September, 2012 :—

(i) Shri Madan Mohan (CSL No. 652)

(ii) Shri S. K. Patial (CSL No. 920)

K. M. SINGH, Under Secy.

The 1st October 2012

No. A-32011/1/2012-Estt.—In terms of Department of Personnel & Training's O. M. No. 4/2/2012-CS.II(A) dated 17th July, 2012 & 10th September, 2012 and on inclusion of his name in the Select List Year 2010 under zoning scheme for Seniority Quota (SQ), the President is pleased to appoint Shri Nitin Jain, Private Secretary (Ad-hoc) of CSSS cadre (CSL No. 759) as Private Secretary of CSSS cadre of Ministry of Petroleum and Natural Gas in PB-2 of Rs. 9,300—34,800/- Rs. 4,800/- (G. P.) on regular basis.

K. M. SINGH, Under Secy.

The 8th October 2012

No. A-60011/29/2006-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training letter No. 2/1/2012-EO(MM.I) dated 10.09.2012, the President is pleased to appoint Shri Alok Tripathi, Indian Railway Traffic Service (1999), as Deputy Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas in PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/- p.m., for a period of four (04) years w.e.f. the forenoon of 05th October, 2012 or until further orders, whichever events takes place earlier.

K. M. SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF STEEL

New Delhi-110107, the 3rd October 2012

No. 11(38)/2012-Estt.—Shri B. D. Ghosh an officer of General Central Service cadre and working as Additional Industrial Adviser in the Ministry of Steel has retired Voluntarily on 01.10.2012 (F/N).

S. K. GUPTA, Under Secy.

The 9th October 2012

No. 5(11)/2012-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 17/9/2012-EO(SM-I) dated the 21st September, 2012, the President is pleased to appoint Shri Syedain Abbasi, IAS (AM-90) as Joint Secretary in Ministry of Steel w.e.f. the forenoon of 9th October, 2012 for a period of five years or until further orders.

S. K. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

New Delhi, the 10th October 2012

No. A-18011/151/2012-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Vivek Rae, IAS (UT:78) as Secretary in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises with effect from the forenoon of 8th October, 2012, until further orders.

U. VISWANADHAM, Dy. Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 10th October 2012

No. A-12011/4/2011-Estt.—In pursuance of the Appointments Committee of the Cabinet's Order No. 9/47/2012-EO(SM.I) dated 21st September, 2012 and in exercise of the power conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), the

Central Government hereby appoints Shri Ramesh Abhishek, IAS (BH:82) as Chairman in the Forward Markets Commission, Mumbai under the administrative control of the Department of Consumer Affairs, in the rank and pay of Additional Secretary to the Govt. of India with effect from the forenoon of the 21st September, 2012.

M. A. CHAUDHURY, Under Secy.

No. A-12011/6/2009-Estt.—In pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 4/2/2012-CS-II(A) dated 17.07.2012, the President is pleased to appoint Smt. Bindu Grover, a regular Steno Grade "C" of CSSS Cadre (CSL No. 311/1993) officiating as Private Secretary on ad-hoc basis in the Ministry of Culture as Private Secretary on regular basis in the Department of Consumer Affairs against the Select List Year 2010 (Part) (Seniority Quota) with effect from the afternoon of 28th September, 2012 and till further orders.

M. A. CHAUDHURY, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 5th October 2012

No. SM/01/32/2010—The President is pleased to promote Brig. R.K. Bahl, holding the post of Director to the post of Additional Surveyor General in PB-04 of Rs. 37,400—67,000/- + GP Rs. 10,000/- in Survey of India against Supernumerary post for the year 2009 with effect from 01.09.2009 and until further orders.

G. VIJAYARAGHAVAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 4th July 2012

No. 17013/04/2008-IFS.II—In exercise of the provisions contained in Sub-Regulation 3 of Regulation 7 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the Union Public Service Commission has approved the Select List for promotion from State Forest Service of Kerala to the Indian Forest Service for the Select Lists 2007-A, 2008 & 2009 prepared in the Selection Committee meeting held on 14.05.2012 containing the names of the State Forest Service Officers of Kerala indicated against the respective Select List towards filling up of Promotion Quota Vacancies available in Kerala Cadre of the Indian Forest Service:—

For the year: 2007-A

Sl. No.	Name	Date of Birth
1	2	3
	S/Shri	
1.	Satheesh Williams	20.04.1954
2.	O. Jayarajan	21.03.1953

1	2	3
For the year: 2008		
1.	K. J. Samuel	24.06.1955
2.	S. Janardanan	28.11.1955
3.	B. Joseph	04.05.1956
4.	T. Pradeepkumar	01.12.1956
For the year: 2009		
1.	Roy P. Thomas	14.04.1958
2.	P. P. Cheriyan Kunju	15.03.1956

S. S. BADHAWAN, Director

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi-110108, the 3rd September 2012

No. A-22012/19/2012-CHS-IV—The Hon'ble President of India, Shri Pranab Mukherjee is pleased to appoint the following Doctors/Surgeons to his panel of Honorary Physician/Surgeons with effect from 16th August, 2012, till his tenure or until further orders, whichever is earlier:—

Sl. No.	Name, Qualification & place of posting of the Officer	Appointed as
1.	Dr. P.R. Goyal MBBS, MRSH, FICA, FSAS, DcRM N4/26, DLF Phase 2, Gurgaon, Haryana	Consultant Physician & Pulmonologist and Chest Diseases, Asthama & Allergy
2.	Dr. Veena Ganju Malla MBBS, MD Dr. RML Hospital, New Delhi	Consultant Gynaecology & Professor (GGSIPU) PHA & PGIMER
3.	Dr. S. P. Mandal MBBS, MS (Ortho.), M. Ch (Ortho.) Sir Ganga Ram Hospital, New Delhi	Consultant Orthopaedic Surgeon
4.	Dr. R. K. Bali BDS, FRSH, FPFA, FADI, FICD, FACD, MPH, Bali Nursing Home, Karol Bagh/East of Kailash, New Delhi	Dental Surgeon

LALIT KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi, the 28th September 2012

No. A-19012/1/2010-EA—Consequent upon her attaining the age of superannuation on 30-9-2012, Smt. Harita Sabharwal, Director, (IES), Commission for Agricultural Costs and Prices, Department of Agriculture and Cooperation, in the Pay Scale of Rs. 37,400—67,000/- + 8,700/- (G.P.) will be

retired from Government Service, with effect from the afternoon of 30th September, 2012.

M. N. SUKUMARAN, Deputy Secy.

New Delhi, the 8th October 2012

No. A-19012/12/2012-EA.—Consequent upon his posting in the Commission for Agricultural Costs and Prices vide Ministry of Statistics and Programme Implementation's Order dated 31.5.2012 in File No. 13016/4/2012-IES, Shri Ravi Singh (IES) is appointed as Assistant Director in PB-3 Rs. 15,600—39,100 + 5,400/- (Grade Pay), in the Commission for Agricultural Costs and Prices, Department of Agriculture and Cooperation, w.e.f 31.08.2012 (A.N.).

A. K. ARORA, Under Secy.

New Delhi, the 10th October 2012

No. 10-56/88-FP/INM—Consequent upon his attaining the age of superannuation, Shri S. N. Pandey, Deputy Director Central Fertilizer Quality Control and Training Institute, Faridabad, Department of Agriculture & Cooperation retired from Government Service with effect from the afternoon of 31.08.2012.

BHERAV DUTT, Under Secy.

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

New Delhi, the 8th October 2012

No. F/1-18/2004-NYKS(Vol.II)—In pursuance of Rule 9(a) of Rules of the Nehru Yuva Kendra Sangathan, Shri Pradeep Tamta, MP (LS) and Shri Ganesh Singh MP (LS) are hereby nominated as members by the Government of India to the Board of Governors of Nehru Yuva Kendra Sangathan against two vacancies meant for Lok Sabha Member of Parliament with immediate effect.

2. The term of membership of Shri Pradeep Tamta and Shri Ganesh Singh will be for three years from the date of their nominations or till the dissolution of the House or till their ceasing to be Members of the House or till further orders, whichever is earlier.

3. This will be subject to other provisions of the Bye-laws and Rules of Nehru Yuva Kendra Sangathan.

RAJIVE SABHARWAL, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT)

New Delhi-1, the 9th August 2012

No. A-12034/2/2009-Estt.II—In pursuance of Department of Personnel & Training's O. M. No. 4/9/2010-EO (MM-I) dated 12.7.2012 the President is pleased to elevate the level of appointment of Shri K. Jagadesan, IPS (AGMUT : 1998) Private Secretary to Minister of State for Social Justice and Empowerment (Shri D. Napoleon) at Director level with effect from 12.7.2012.

2. Shri Jagadesan's appointment as PS to Minister (SJ&E) at Director level in this Ministry will be as a measure personal to him. There will be no change in his approved tenure as Private Secretary to the MOS (SJ&E) which is up to 26.09.2015.

UTTAM PRAKASH, Under Secy.

The 30th August 2012

No. A-20011/5/2011-Estt.I—On exercising her option for voluntary retirement under Rule 56(k) of FRSR and on acceptance of the same by the competent authority, the President is pleased to permit Smt. Sudesh Saini, Section Officer of this Ministry to retire from Government service w.e.f the forenoon of 01.09.2012.

UTTAM PRAKASH, Under Secy.

The 20th September 2012

No. A-12022/1/2007-Estt.I—In pursuance of Department of Personnel & Training's O. M. No. 4/2/2012-EO (MM-I) dated 09.7.2012 the President is pleased to appoint Shri Gyanendra Kumar Dwivedi, ITS (1993), as Director in the Ministry of Social Justice & Empowerment w.e.f the forenoon of 10th September, 2012, upto 09.09.2017 or until further orders, whichever event takes place earlier.

UTTAM PRAKASH, Under Secy.

DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

No. A-42018/45/2009-Estt. I—In terms of Section 5(1) of the Right to Information Act, 2005, the following is the revised list of Central Public Information Officers of the Ministry of Social Justice and Empowerment :—

S. No.	Bureau/Division	Name	Designation	Telephone Nos.	Subject matter
1	2	3	4	5	6
		S/Shri			
1.	Administration	Uttam Prakash	Under Secretary	23382184	All matters pertaining to : (i) the Administration/ Establishment of the Ministry, (ii) Discretionary Fund.

1	2	3	4	5	6
2.	SCD & Media	P. L. Negi	Director	23385491	All matters pertaining to : (i) Vigilance Unit (ii) Dr. Ambedkar Foundation, (iii) Babu Jagjivan Ram National Foundation (BJRNF), (iv) National Safai Karmacharis Finance and Development Corp. (NSKFDC), (v) National Scheduled Castes Finance and Development Corp. (NSFDC), (vi) Scheduled Caste Development Corporation, (SCDC).
3.		Chaitanya Murti	Director	23070095	All matters pertaining to : (i) Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers (SRMS), (ii) Work relating to Committee of Ministers on Dalit Affairs, (iii) Corporate Cell, (iv) Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana (PMAGY), (v) Affirmative Action, Reservation in private sector, and (vi) Parliament work.
4.		Gyanendra Kumar Dwivedi	Director	23070094	All matters relating to : (i) Scheduled Castes Sub Plan (SCSP), (ii) Scheme for Special Central Assistance to SCs Sub Plan.
5.		Sham Sunder Gupta	Deputy Secretary	23387690	All matters relating to : (i) Babu Jagjivan Ram Chhatrawas Yojna for SC Boys & Girls, (ii) Coaching and allied Scheme for SCs/OBCs students, (vi) Top Class Education (vii) upgradation of Merit for SC Students.
6.		Sandeep Kumar Gupta	Deputy Secretary	23389474	All matters relating to : (i) Post Matric Scholarship for SC students, (ii) Rajiv Gandhi National Fellowship Scheme for SC Students, (iii) National Overseas Scholarship Scheme for SC Students; (iv) Pre-Matric Scholarship Scheme for SC Students, (v) Pre-Matric Scholarship Scheme for children of those engaged in unclean occupations, (vi) Automation of SCD Bureau.
7.		M. A. Muraleedharan	Deputy Secretary	23388519	All matters pertaining to : (i) Administrative work relating to NCSC, Joint Cadre, (ii) Scheme for Grant-in-aid to Voluntary Organisations working for SCs, (iii) R. I. Cell and (iv) National Commission for Safai Karamcharis.
8.		Kanhaiya Lal	Under Secretary	23388511	All matters relating to : (i) Protection of Civil Rights Act 1956 & the SCs and the STs (Prevention of Atrocities) Act 1989, and (ii) Revision of lists of SCs.
9.	SD	Lalsanglur	Director	23383256	All matters pertaining to : (i) Sanction of Grant-in-aid to Non-Governmental Organisations under the "Scheme for Prevention of Alcoholism and Substance (Drugs)" and "Scheme of Integrated Programme of Older Persons", (ii) Policy matters relating to Senior Citizens and Drug Abuse Prevention and (iii) Administrative matters of National Institute of Social Defence.

1	2	3	4	5	6
10.		J. K. Sahu	Under Secretary	23388837	All matters pertaining to : (i) SD—Co-ordination, (ii) Implementation of the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007, (iii) Proposed New Scheme, for Establishment of Old Age Homes for Indigent Senior Citizens.
11.		Aujender Singh	Under Secy.	23073703	All matters pertaining to : (i) Beggary, (ii) Transgender/Eunuch, (iii) National Survey on the extent, pattern and trends of drug abuse in the Country in collaboration with NSSO.
12.	BC	Surekha Sahu	Director	23382774	All matters pertaining to Relief and Rehab. of the Narmada Control Authority.
13.		E.V. Thomas	Under Secy.	23753406	All matters pertaining to (i) Centrally Sponsored Schemes for Pre-matric/Post-matric Scholarships for OBCs, (ii) Scheme of Construction of Hostels for Boys and Girls for OBCs, and (iii) Central Sector Scheme for Grant-in-aid to Voluntary Organisations for OBCs.
14.		K.N. Mishra	Under Secy.	23753407	All matters pertaining to (i) NBCFDC, (ii) National Commission for Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes, and (iii) Co-ordination of Backward Classes Bureau.
15.		C.V.L.N. Prasad	Dy. Secretary	23753405	All matters pertaining to: (i) inclusion of castes in the Central List of OBCs & matter relating thereto, (ii) National Commission for Backward Classes, (iii) Commission for Economically Backward Classes and (iv) Policy of OBCs.
16.	IFD	T.V.A. Ram	Dy. Secretary	23387430	Matters pertaining to Internal Finance Division
17.		Sanyasi Pradhan	Dy. Secretary	23389474	Matters pertaining to Internal Finance Division & Budget.
18.	Cdn. & Plan	R. Krishna Murthy	Dy. Secretary	23070094	All matters pertaining to Cdn. Unit
19.		Dr. (Ms.) Madhumala Chattopadhyay	Sr. Research Officer	23070907	All matters pertaining to (i) Research Studies, (ii) Planning, (iii) Evaluation and Monitoring, (iv) Statistics of Social Welfare Activities of the Ministry and (v) Encyclopedia of Social Welfare.
20.		Arvind P. Singh	Under Secy.	23386981	Matters pertaining to Co-ordination and Facilitation Centre (Public Grievances and RTI).
DEPARTMENT OF DISABILITY AFFAIRS					
21.	Deptt. of Disability Affairs	K.V.S. Rao	Director	23387539	All matter pertaining to: (i) Implementation of PWD Act, 1995, (ii) National Awards for Persons with Disabilities, (iii) Court Cases, (iv) Follow up on National Policy, (v) Accessibility for PWDs, (vi) Amendment of PWD Act, 1995, (vii) CCDP office, (viii) International Co-ordination-UN Convention on Rights of PWD, GPDD, Bilateral Projects, (ix) Incentive Scheme for employers in Private Sectors for PWD, (x) RCI Act 1992, (xi) RCI, (xii) Trust Fund and (xiii) Scheme for implementation of PWD Act (SIPDA).
22.		O.P. Dogra	Dy. Secy.	23071374	All matters pertaining to: (i) Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme, (ii) Screening Committee, and (iii) DDRC.

1	2	3	4	5	6
23.	Jagdish Kumar	Dy. Secy.	23386220	All matters pertaining to: (i) National Institutes including Composite Rehabilitation Centres, (ii) Indian Spinal Injury Centre, (iii) Scheme for Assistance for purchase of Aids and Appliances for Persons with Disabilities under ADIP Scheme, (iv) Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO of India), (v) Bilateral agreements and (vi) Pending issues of DRC/RRTC after their closure.	
24.	Nidhi Khare	Director	23383464	All matters pertaining to: (i) National Trust Act 1999, (ii) National Funds, (iii) National Handicapped Finance Development Corporation, (iv) Coordination of DD, (v) National Scholarship for Disabled and (vi) All matters pertaining to Co-ordination of the Disability Affairs.	

During the leave etc. of a CPIO, his link officer will function as CPIO.

UTTAM PRAKASH, Under Secy.

The 4th October 2012

No. A-12022/01/2010-Estt.II.—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 3/3/2011-CS-II (A) dated 20th March, 2012, the President is pleased to appoint the following Principal Private Secretaries (ad-hoc) and Private Secretary of CSSS cadre of this Ministry to the post of Principal Private Secretary (Group 'A' Gazetted) of the Central Secretariat Stenographers Service cadre of the Ministry of Social Justice and Empowerment, on regular basis with effect from the forenoon of 20th March, 2012:—

S.No.	Name & Designation	Ministry/Department where working	Ministry/Department where nominated
	(Sh./Smt/Ms.)		
1.	S. Sudarshan, PPS (ad hoc)	SJ&E	SJ&E
2.	J.S. Ahluwalia, PPS (ad hoc)	SJ&E	SJ&E
3.	Devinder Kumar, PPS (ad hoc)	SJ&E	SJ&E
4.	S.K. Bhatia, PPS (ad hoc)	SJ&E (MTA)	MTA*
5.	Raj Kumar, PPS (ad hoc)	SJ&E (MTA)	MTA*
6.	K.P. Singh, PS	SJ&E	SJ&E
7.	R.K. Acharya, PPS (ad hoc)	SJ&E (NCST)	MTA (NCST)*
8.	Kiran Jolly, PPS (ad hoc)	SJ&E	SJ&E
9.	Ram Shiromani Saroj, PPS (ad hoc)	SJ&E (MTA)	MTA*
10.	Sanjay Chopra, PPS (ad hoc)	SJ&E	SJ&E
11.	Thakur Negi, PPS (ad hoc)	SJ&E (MTA)	MTA*

* In terms of DoP&T's order No. 25/1/2009-CS.I (P) dated 17th July, 2012 regarding cadre separation of Ministry of Tribal Affairs from this Ministry, the Present incumbents in the various grades of CSS and CSSS shall remain posted to the respective cadre-units on as is where is basis.

UTTAM PRAKASH, Under Secy.

The 5th October 2012

No. A-42018/45/2009-Estt.I—In terms of Section 19(1) of the Right to Information Act, 2005, and in supersession of its notification of No. A-43018/1/2008-Estt. I dated 11.03.2010, the Ministry of Social Justice & Empowerment hereby designates

the following officers as the appellate Authorities for the purpose of Implementation of the Right to Information Act, 2005 in respect of items of work shown against them:—

S. No.	Name & designation	Address and Telephone No.	Work allocation
1.	Shri Sanjeev Kumar, J S (SCD), Deptt. of SJ&E	Room No. 613, A Wing, Shastri Bhawan New Delhi. Tel. No. 011-23383853	(i) Scheduled Caste Development Division (ii) Parliament (iii) Member-Secretary, Dr. Ambedkar foundation
2.	Shri T.R. Meena, J S (SD) & CVO, Deptt. of SJ&E	Room No. 610, A Wing Shastri Bhawan, New Delhi. Tel. No. 011-23387924	(i) Social Defence (ii) Vigilance
3.	Ms. Ghazala Meenai, J S(BC,Cdn,Media & R&R), Deptt. of SJ&E	Room No. 616, A Wing, Shastri Bhawan, New Delhi Tel. No. 011-23387269	(i) BC Division (ii) Media (iii) Coordination (including work relating to (a) Common/Policy issues relating to Plan Schemes implemented through NGOs, (b) Annual Social Editor's Conference, (c) Management of Website of the Ministry, & (d) CAG Audit Paras & PAC Reports involving more than one Bureau). (iv) Work relating to R&R of Narmada Project.
4.	Shri R.S. Meena, J S (in situ), Deptt. of SJ&E	Room No. 637, A Wing, Shastri Bhawan, New Delhi Tel. No. 011-23073552	(i) Administration (ii) Official Language (iii) Facilitation Centre (Public Grievance & RTI)
5.	Dr. J.C. Sharma, EA, Deptt. of SJ&E	Room No. 611, A Wing, Shastri Bhawan, New Delhi Tel. No. 011-23383004	(i) Plan Division (Planning & Monitoring). (ii) Coordination work relating to (a) Initiatives Programme relating to skill Development, and (b) UIDAI/Aadhaar.
6.	Shri Mukat Singh, DDG, Deptt. of SJ&E	West Block-8, Wing II, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi. Tel. No. 011-26109063	Statistics Division (Statistics, Research & Evaluation)

DEPARTMENT OF DISABILITY AFFAIRS

Name	Address and Telephone No.	Work allocation
Shri Pankaj Joshi, Deptt. of Disability Affairs	Room No. 612, A Wing, Shastri Bhawan, New Delhi, Tel. No. 011-23384284.	Disability Development

UTTAM PRAKASH, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & IT(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 13th September 2012

No. 32014/1/2012-Admn.I—The President is pleased to appoint the following Assistants of Select List 2003 of Central Secretariat Service Cadre of the Department of Telecommunications, Ministry of Communications and Information Technology, as Section Officers on ad hoc basis with effect from the forenoon of 12th September, 2012 in this Department in Pay Band-2 in the Pay Scale of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800, initially for the period upto 31.12.2012:—

S.No.	Name	Category
1.	B.S. Chauhan	Gen
2.	Om Prakash Chanchal	OBC
3.	R.P. Duhan	Gen
4.	V. Somasundram	Gen
5.	C.K. Srivastava	Gen

2. Ad hoc promotion to the grade of Section Officers will be subject to the following Conditions:—

- (i) The ad-hoc Appointments shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer grade of CSS.
- (ii) The Ad hoc arrangements may continue till regular candidates in Section Officer Grade are available either through Seniority Quota and/or Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistant's Grade on availability of such regular officers, from the date they (regular Section Officer) join duty in their respective cadre allotted to them by DOP&T.

VIMAL, Under Secy.

New Delhi-110001, the 19th September 2012

No. 41/8/2001-Admn.II—On attaining the age of superannuation, Shri A.K. Roy, Engineer and Shri K.K. Dubey, Engineer, Wireless Monitoring Organisation, Department of Telecommunications, Ministry of Communications & I.T., retired from Government service with effect from the afternoon of 31st July, 2012.

NIRMALA DEV, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 8th October 2012

No. E(GP)2009/3/1—The President is pleased to appoint the under mentioned Group 'B' Officer of Accounts Department of Indian Railways, to Group 'A'/Junior Scale of Indian Railway Accounts Service (IRAS) with effect from 01.03.2012 on the Railway mentioned as under:—

PANEL FOR 2011-12

M. Selvamuthurai

SR

R.C. JAT, Secy.
Railway Board

The 10th October 2012

No. ERB-I/2010/10/4—The following officers of Railway Board retired from service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 30.09.2012:—

- i) Shri Ranjan Kumar Jain Adviser (Infrastructure).
- ii) Ms. Paramjit Kaur-1, Principal Private Secy.
- iii) Smt. Jasbir Kaur, Section Officer.

R.C. JAT, Secy.
Railway Board

No. ERB-I/2010/10/4—Ms. Deenamma Baby, Section Officer, Railway Board, retired voluntarily from service with effect from the forenoon of 01.10.2012.

R.C. JAT, Secy.
Railway Board

No. ERB-I/2010/10/4—Ms. Lakshmi Venugopal, Private Secretary, Railway Board, retired voluntarily from service with effect from the forenoon of 01.10.2012.

R.C. JAT, Secy.
Railway Board

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi, the 28th September 2012

No. LH-21013/1/2012-SL—The President is pleased to promote the following officers in the grade of Superintendent to the post of Executive Officer in the Pay Scale of PB-2, Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay 4,600/- (revised) Rs. 7,450-225-11,500/- (prerevised) in the Pay Scale of PB-2, Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay 4,600/- (revised) in the Directorate General of Lighthouses & Lightships with effect from the dates indicated against each:-

- (1) Shri P. J. Nakhwa, Executive Officer : 22.08.2012
- (2) Shri Y. K. Badola, Executive Officer : 22.08.2012
- (3) Smt. Kanchan Anand, Executive Officer : 24.08.2012

KANCHAN BALA HAMZA, Under Secy.

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 1st October 2012

No. A-32014/1/2012-E.-I(B)—Consequent upon inclusion of her name in the Select List of 2010 of Steno Grade 'A' & 'B' (Merged) of CSSS (part) under the Zoning Scheme for Seniority Quota vide Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel & Training's O.M. No. 4/2/2012-CS.-II (A) dated 17.07.2012, the President is pleased to appoint Smt. Arvinder Kaur Panthey, regular PA/PS (ad-hoc) of CSSS cadre of Deptt. of Personnel & Training as Private Secretary (PS) on regular basis in the Ministry of Road Transport & Highways in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from 26.09.2012(FN).

H. R. MEENA, Under Secy.

The 3rd October 2012

No. A-38013/04/2012-E.-I—Shri Dayanand, an officer of Central Secretariat Service and working as Section Officer in the Ministry of Road Transport & Highway has retired voluntarily with effect from 01.10.2012 (FN).

H. R. MEENA, Under Secy.

The 24th September 2012

No. A-12033/1/2010-E.-I—In pursuance of Secretariat of the Appointment Committee of Cabinet, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel & Training's Order No. 1/5/2012-EO (SM.-I) dated 14.08.2012, the President is pleased to appoint Shri Alkesh Kumar Sharma, IAS (KL : 90) as Joint Secretary in the Ministry of Road Transport & Highways in Pay Band-4 Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 10,000/- Grade Pay for a period of 5 years w.e.f. 17.09.2012 (F.N.) or until further orders, whichever event takes place earlier.

H. R. MEENA, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi-110001, the 16th August 2012

No. 351/2012 F. No. 5/2/2007-Admn.-II—Consequent upon his promotion to the Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service on ad hoc basis, vide DoPT's Order No. 4/14/2011-CS.-I (D) dated 31/07/2012, the President is pleased to appoint Shri Sham Lal, [CSL No. 4807], posted as Under Secretary in this Ministry, as Deputy Secretary in the Selection Grade of Central Secretariat Service in Ministry of Information & Broadcasting, in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from the forenoon of 01.08.2012.

2. On his appointment as Deputy Secretary, he is posted in the Main Sectt. of this Ministry and designated as Deputy Secretary (Budget) with immediate effect and until further orders.

S. S. BEDI, Under Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 4th October 2012

No. A-32014/01/2012-Admn.-I (Pt.)—Consequent upon their nomination for appointment to the Grade of Private Secretary of CSSS for the Select List Year 2010 (Part) on regular basis under the Zoning Scheme for Seniority Quota (SQ) vide Department of Personnel & Training's OM No. 4/2/2012-CS.-II (A) dated 17th July 2012 and on their being relieved from their respective Ministry/Department, the President is pleased to appoint the following regular Steno

Grade 'C' of CSSS cadre (who were officiating as PS on ad hoc basis), to the post of Steno Grade 'A&B' (merged) (Private Secretary) on regular basis in the Central Secretariat Stenographer Service of the Ministry of Urban Development w.e.f. the date they assumed the charge of the post in this Ministry :—

Sl. No.	Name	Ministry/Department posted from	Date of assumption of the charge of PS
(Smt./Ms.)			
1.	Kiran Lakra	Deptt. of Revenue	28.09.2012(FN)
2.	Veena Bhalla	Defence	28.09.2012(AN)
3.	Sunita Sharma	Defence	28.09.2012(AN)
4.	Paramjeet Juneja	Defence	28.09.2012(AN)

JITENDER KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 25th September 2012

No. A-12025/12/2009-ISH.-II—The President is pleased to appoint the following officers to the post of Deputy Director of Mines Safety (Electrical) in PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 7,600/- in the Directorate General of Mines Safety, Dhanbad with effect from the date shown against their names and until further orders :—

Sl. No.	Name	Date of appointment in the Grade of Deputy Director of Mines Safety (Electrical)
1.	Sh. S. Puttaraju	27.01.2012
2.	Sh. Biswanath Behera	30.01.2012
3.	Sh. Palanimalai C.	21.02.2012
4.	Sh. Anand Agrawal	26.03.2012
5.	Sh. Prakash Kumar	26.03.2012
6.	Sh. Rajkumar	23.04.2012

S. K. SINGH, Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
 एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012
 PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
 PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012